



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 12] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 20-मार्च 26, 2004 (फाल्गुन 30, 1925)
No. 12] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 20-MARCH 26, 2004 (PHALGUNA 30, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I-खण्ड 2

[PART I-SECTION 2]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 27 फरवरी 2004

सं० ए-22012/1/2004-पी०एम०ए०-राष्ट्रपति जी, श्रीमती वी० विद्यावती, आई० ए० एस० (कर्नाटक: 91), को दिनांक 26 फरवरी, 2004 के पूर्वाह्न से लेकर चार वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, प्रधान मंत्री कार्यालय में उप सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

पी० के० राय, अवर सचिव

आगामी आदेशों तक निदेशक के रूप में स्थापनापन रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करने की कृपा की है।

2. उपर्युक्त नियुक्ति रिट याचिका सं० 3025/88 के अंतिम निपटान के समय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिए जाने वाले आदेशों के अधधीन होगी।

प्र० रं० गुहाराय, उप सचिव

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 मार्च 2004

सं० आरएस/3(i)/2004/13-कार्मिक-राज्य सभा के सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में उप सचिव, श्री ज्ञान चन्द मिश्रालाई को इस सचिवालय में 1 मार्च, 2004 के पूर्वाह्न से

1-502 GI/2003

सं० आरएस/3(i)/2004/14-कार्मिक-श्री आलोक कुमार चटर्जी, जिन्हें अधिसूचना सं० आरएस/3(i)/2003/11-कार्मिक, दिनांक 21 अप्रैल, 2003 द्वारा अवकाश रिक्ति के स्थान पर उप सचिव के संवर्ग में स्थापनापन रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था, को अब 1 मार्च, 2004 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक उसी संवर्ग में नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है।

2. श्रीमती वंजला जी० राजन, जिन्हें अधिसूचना सं० आर०एस०/2(i)/2002/72-कार्मिक, दिनांक 11 अक्टूबर, 2002 द्वारा प्रतिनियुक्ति रिक्ति के स्थान पर अवर सचिव के संवर्ग में स्थापनापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था, को अब 1 मार्च, 2004 के पूर्वान्त से आगामी आदेशों तक उसी संवर्ग में नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है।

3. उपर्युक्त नियुक्तियाँ रिट याचिका सं० 3025/88 के अंतिम निपटान के समय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के अधधीन होंगी।

प्र० रं० गुहाराय, उप सचिव

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 17 फरवरी 2004

सं० पीएफ-1878(3)/जी एन-5089/ए एन-I/2004—
अध्यक्ष महोदय, 12750-16500 रु० के वेतनमान में उप सचिव के पद पर कार्यरत श्री आर० कोथंडारमन, जो वर्तमान में नागलैंड विधानसभा सचिवालय में प्रतिनियुक्ति पर हैं, को 15100-400-18300 रु० के वेतनमान में निदेशक के ग्रेड में 16 फरवरी, 2004 से अगले आदेशों तक सहर्ष प्रोफार्मा पेशकशि प्रदान करते हैं।

आनन्द बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

सं० पीएफ 1742(3)/ए एन-I/जी एन-5090/2004—
अध्यक्ष महोदय, 12750-16500 रु० के वेतनमान में उप सचिव के पद पर कार्यरत श्री यू० एस० सक्सेना को 15100-400-18300 रु० के वेतनमान में निदेशक के ग्रेड में 16 फरवरी, 2004 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

आनन्द बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

सं० पीएफ 1497 (3) जी एम-5091/ए एन-I/2004—
अध्यक्ष महोदय, श्री हरदेव सिंह, अवर सचिव को जिन्हें दिनांक 25 सितम्बर 2003 की अधिसूचना सं० जी० एन० 4998/2003 के द्वारा तदर्थ आधार उप सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था, 12750-375-16500 रु० वेतनमान में उप सचिव के ग्रेड में नियमित आधार पर 16 फरवरी, 2004 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

आनन्द बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

सं० पीएफ 1814/(3)/जी एन-5092/ए एन-I/2004—
अध्यक्ष महोदय, 12000-16500 रु० वेतनमान में अवर सचिव के पद पर कार्यरत श्रीमती सुदेश लूथरा को 12750-375-16500 रु० के वेतनमान में उप सचिव के ग्रेड में तदर्थ आधार पर 16 फरवरी, 2004 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

आनन्द बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

सं० पी एफ 2502(3) जी एन-5093/ए एन-I/2004—
अध्यक्ष महोदय, श्री आर० सी० तिवारी, सहायक निदेशक को जिन्हें दिनांक 27 अक्टूबर 2003 की अधिसूचना सं० जी एन 5039/2003 के द्वारा तदर्थ आधार पर अवर सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था, 12000-375-16500 रु० के वेतनमान में अवर सचिव के ग्रेड में नियमित आधार पर 16 फरवरी 2004 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

आनन्द बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

सं० पीएफ 2588(3)/जी एन-5094/ए एन-I/2004—
अध्यक्ष महोदय, 10000-15200 रु० के वेतनमान में सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत श्री टी० जी० चन्द्रशेखर को 12000-375-16500 रु० के वेतनमान में अवर सचिव के ग्रेड में तदर्थ आधार पर 16 फरवरी, 2004 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

आनन्द बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

सं० पीएफ 2304(3)/जी एन-5095/ए एन-I/2004—
अध्यक्ष महोदय, 10000-15200 रु० के वेतनमान में सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत श्रीमती अनिता बी० पाण्डा को 12000-375-16500 रु० के वेतनमान में अवर सचिव के ग्रेड में तदर्थ आधार पर 16 फरवरी, 2004 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

आनन्द बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

सं० पीएफ 1341(3)/जी एन-5096/ए एन-I/2004—
अध्यक्ष महोदय, 8000-13500 रु० के वेतनमान में कार्यरत निम्नलिखित कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारियों को 10000-325-15200 रु० के वेतनमान में तीये दर्शाये गए क्रम में सहायक निदेशक के ग्रेड में 16 फरवरी, 2004 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं—

1. श्री नारायण दास
2. श्री रवि चन्द जैन

आनन्द बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

सं० पीएफ 3000(3)/जीएन-5097/एन-1/2004—अध्यक्ष महोदय निम्नलिखित वरिष्ठ कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल सहायकों, जिन्हें दिनांक 25 दिसम्बर 2003 की अधिसूचना सं० जी०एन० 5006/2003 और दिनांक 27 अक्टूबर 2003 की अधिसूचना सं० जी०एन० 5042/2003 के द्वारा तदर्थ आधार पर कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, को 8000-275-13500 रु० के वेतनमान में कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी के ग्रेड में नियमित आधार पर 16 फरवरी 2004 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

1. श्री जोगिन्दर सिंह
2. श्री ए० के० सूद
3. श्री ए० एस० के० दास

2. उपर्युक्त व्यक्ति कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी के ग्रेड में 16 फरवरी, 2004 से 15 फरवरी 2006 तक की दो वर्ष की अवधि के लिए परीवीक्षा पर रहेंगे।

3. उनकी कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी के ग्रेड में परस्पर वरिष्ठता 20 दिसम्बर 2003 के आर एण्ड सीएस आदेश संख्या पीडीए-1076/2003 में यथा अंतर्विष्ट नमो वरिष्ठता आदेशों के अनुसार विनियमित की जाएगी।

आनन्द बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

सं० पीएफ 1373(3)/जीएन-5098/एन-1/2004—अध्यक्ष महोदय 7,450-11,500 रु० के वेतनमान में कार्यरत निम्नलिखित वरिष्ठ कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल सहायकों को 8,000-275-13,500 रु० के वेतनमान में कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी के ग्रेड में तदर्थ आधार पर 16 फरवरी, 2004 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

1. श्रीमती नरिन्दर कौर मथारू
2. श्री राजकुमार शर्मा
3. श्री सोहन कुमार गांगुली

आनन्द बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

सं० पीएफ 2571(3)/एन-1/जीएन-5118/2004—माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निजी सचिव, श्री बी० आर० रमेश ने प्रतिनिधित्व से वापस आने के बाद 16 फरवरी, 2004 के अपराह्न से इस सचिवालय में 12750-375-16500 रु० के वेतनमान में उप-सचिव का कार्यभार संभाल लिया है।

आनन्द बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

सं० पीएफ 2571(3)/एन-1/जीएन-5119/2004—अध्यक्ष महोदय, 12750-16500 रु० के वेतनमान में उप-सचिव के पद पर कार्यरत श्री बी० आर० रमेश को 15100-400-18300 रु० के वेतनमान में निदेशक के ग्रेड में तदर्थ आधार पर 17 फरवरी, 2004 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

आनन्द बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

सं० पी० एफ० 2571(3)/ए० एन०-1/जी०एन०-5120/2004—अध्यक्ष महोदय, तदर्थ आधार पर, निदेशक, श्री बी० आर० रमेश को 15100-400-18300 रुपए के वेतनमान में माननीय लोक सभा अध्यक्ष (श्री मनोहर जोशी) के निजी सचिव के पद पर 17 फरवरी, 2004 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. निजी सचिव के रूप में उनकी नियुक्ति सेवावृत्ति के आधार पर तथा वर्तमान लोक सभा अध्यक्ष के प्रसादपत्र और उनकी पदावधि के साथ सहविस्तारी होगी।

आनन्द बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

सं० एफ 15/10/2003/एन-1/जीएन/5125/2004—अध्यक्ष महोदय, लोक सभा सचिवालय में क्रमशः 8-10 फरवरी, 2002 तथा 27-28 दिसम्बर, 2002 को हुई लिखित परीक्षा और वैयक्तिक साक्षात्कार के आधार पर कार्यकारी/विधायी/प्रोटोकॉल/समिति अधिकारी के पद के लिए चयन होने के परिणामस्वरूप निम्नलिखित व्यक्तियों को 12 फरवरी, 2004 के पर्वान्त से अगले आदेशों तक 8000-13500/- रुपए के वेतनमान में कार्यकारी/विधायी/प्रोटोकॉल/समिति अधिकारी के पद पर स्थानापन्न आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

1. सुश्री भारती प्लुषी
2. श्रीमती अर्चना पटानिया

2. वे 12 फरवरी, 2004 से 11 फरवरी 2005 तक एक वर्ष की अवधि के लिए कार्यकारी/विधायी/प्रोटोकॉल/समिति अधिकारी के ग्रेड में परीवीक्षा पर रहेंगे।

3. उनकी कार्यकारी/विधायी/प्रोटोकॉल/समिति अधिकारी के ग्रेड में परस्पर वरिष्ठता दिनांक 20 दिसम्बर, 2003 के आर एंड सीएस आदेश सं० पीडीए-1067/2003 में यथा-अंतर्विष्ट नमो वरिष्ठता आदेशों के अनुसार विनियमित की जाएगी।

आनन्द बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

दिनांक 24 फरवरी 2004

सं० पी० एफ० 1583(3) ए० एन०-1/जी० एन०-5128/2004—तेरहवीं लोक सभा का 6 फरवरी, 2004 को विघटन हो जाने के परिणामस्वरूप श्री शीतल कुमार शर्मा,

जिन्हें विशेष कार्य अधिकारी (आई० टी०) नियुक्त किया गया था, की सेवाएं 6 फरवरी, 2004 के अपराह्न से समाप्त हो गयी हैं।

आनन्द बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

दिनांक 1 मार्च 2004

सं० पीएफ 1024(3)/जी एन-5138/ए एन-1/2004—अध्यक्ष महोदय, 12000-16500 रुपये के वेतनमान में अवर सचिव के पद पर कार्यरत श्री सी०डी० मलवालिया को 12750-375-16500 रुपये के वेतनमान में उप सचिव के ग्रेड में 25 सितम्बर, 2003 से अर्थात् जिस तारीख से अवर सचिव के ग्रेड में उनके कनिष्ठ श्री हरदेव सिंह को तदर्थ आधार पर उप सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. दिनांक 25 सितम्बर, 2003 से 29 फरवरी, 2004 तक उप सचिव के रूप में उनकी नियुक्ति की अवधि अप्रयोगमूलक मानी जाएगी जिसके लिए उन्हें वेतन और भत्तों की बकाया राशि नहीं दी जाएगी।

3. श्री मलवालिया, उप सचिव के ग्रेड में श्री हरदेव सिंह से वरिष्ठ परन्तु श्री आर०एस० मिश्रा से कनिष्ठ होंगे।

आनन्द बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 फरवरी 2004

सं० ए-19013/4/98-प्रशा०-I—इस समय मंत्रिमंडल सचिवालय में निदेशक, श्री पी० गोपालाकृष्णन का प्रतिनियुक्ति के आधार पर 18,400-500-22,400 रुपये के वेतनमान में संसदीय कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर चयन हो जाने के परिणामस्वरूप, उन्होंने 26 फरवरी, 2004 के अपराह्न से मंत्रिमंडल सचिवालय में निदेशक का पदभार छोड़ दिया।

सुनील मिश्र, उप सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 25 फरवरी 2004

सं० एफ-6(1794)/99-प्रशा०-1—राष्ट्रीय किसान आयोग (एन०सी०एफ०) में अध्यक्ष के पद पर उनकी नियुक्ति के परिणामस्वरूप, श्री सोम पाल ने दिनांक 10-02-2004 (पूर्वाह्न) से योजना आयोग में सदस्य के पद का पदभार त्याग दिया है तथा राष्ट्रपति दिनांक 10-2-2004 (पूर्वाह्न) से योजना आयोग में सदस्य के पद से उनके त्यागपत्र को स्वीकृति प्रदान करते हैं।

के० के० छाबड़ा, अवर सचिव

दिनांक 26 फरवरी 2004

शुद्धि पत्र

सं० एफ-6 (1794)/99-प्रशासन-1 : कृषि एवं सह-कारिता विभाग के दिनांक 12 फरवरी, 2004 के आदेश सं० 9-2/2004-नीति (ई० एस०) के मद्देनजर से योजना आयोग के सदस्य के पद से श्री सोमपाल के त्यागपत्र की मंजूरी की तिथि को योजना आयोग की दिनांक 25-02-2004 की सम-संख्यक अधिसूचना में इंगित तिथि दिनांक 10-02-2004 (पूर्वाह्न) के स्थान पर दिनांक 10-02-2004 (अपराह्न) पढ़ें।

के० के० छाबड़ा, अवर सचिव

दिनांक 27 फरवरी 2004

सं० एफ-6 (1813)/2000-प्रशासन-1 : अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप, श्री वाई० आर० नन्दवानी, सी० एस० एस०, उप सचिव (स्व-स्थाने), योजना आयोग दिनांक 29-02-2004 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होते हैं।

के० के० छाबड़ा, अवर सचिव

सं० ए-31013/2/2001-प्रशा० II—योजना आयोग की दिनांक 31-7-2002 की अधिसूचना सं० ए-12025/8/99-प्रशा० II के क्रम में, राष्ट्रपति, योजना आयोग के श्री ए० मुरलीधरन, अनुसंधान अधिकारी (सिविल इंजीनियरिंग) को दिनांक 29-07-2003 (पूर्वाह्न) से अपने पद पर स्थायी तौर पर नियुक्त करते हैं।

के० के० छाबड़ा, अवर सचिव

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन

(क्षेत्र संकाय प्रभाग)

नई दिल्ली-66, दिनांक 1 मार्च 2004

सं०-ए-12034/2/2003-स्था०-I—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर इस प्रभाग के निम्नलिखित अधीक्षक प्रत्येक के नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से सरकारी सेवा से मुक्त हो गए हैं :-

क्र० सं०	नाम	तैनाती का वर्तमान स्थान	सेवानिवृत्ति की तिथि
1	2	3	4
सर्व श्री			
1.	आशुतोषकरण	कोलकाता	30-11-2003 (अपराह्न)
2.	एल० खिरियम	शिलांग	—वही—

1	2	3	4
3. एस०एस० पाटिल	शोलापुर	30-11-2003 (अप०)	
4. एस० जगपालन	थन्जौर	31-12-2003 (अप०)	
5. डी० एस० त्रिपाठी	फतेहपुर	—वही—	

वेदान्तम गिरि, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 1 मार्च 2004

सं० 193/22/3/2004 (के० एम०)—अधिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर भारत निर्वाचन आयोग में अनुभाग अधिकारी, श्री कृष्ण मुरारी दिनांक 29-02-2004 (अपराह्न) से सेवानिवृत्त हो गये।

नरेन्द्र नाथ बुटोलिया, अवर सचिव

सं० 193/22/2/2004 (एसपीएस)—अधिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर भारत निर्वाचन आयोग में सचिव, श्री शरण पाल सिंह दिनांक 29-02-2004 (अपराह्न) से सेवानिवृत्त हो गये।

नरेन्द्र नाथ बुटोलिया, अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 01 मार्च 2004

सं० ए० 32013/6/2003-प्रशा०-I वि०वि०—राष्ट्रपति, विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के राजभाषा खण्ड में कार्यरत श्री बी० आर० जे० मीना, सहायक विधायी परामर्शी (हिन्दी) को दिनांक 27 फरवरी, 2004 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस विभाग के उक्त खण्ड में सं० 12,000-375-16,500 के वेतनमान में उप विधायी परामर्शी (हिन्दी) के रूप में कार्य करने हेतु सहर्ष नियुक्त करते हैं।

किरण पुरी, उप सचिव

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 फरवरी 2004

सं० ए-12023/19/88-प्रशा०-III (वि०का०)—62 वर्ष के होने पर, श्री बसंत मल कोठारी, लेखा सदस्य, आयकर अपील अधिकरण, आयकर अपील अधिकरण संवत्स (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 1963 के अनुसार दिनांक 25 फरवरी, 2004 के अपराह्न से अधिवृत्ति पर सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

यशवन्त सिंह, अवर सचिव

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 फरवरी 2004

सं० के० 13018/1/2003 यू० एस० I—भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, (1) श्री मुकेशकुमार रसिकभाई शाह, (2) श्री कल्पेश सत्येन्द्र शक्वरी, (3) श्री अकिल अब्दुल-हमीद कुरैशी और (4) श्री श्रीरामाई नारायणभाई पटेल को उसी वरीयता क्रम में अपना-अपना पदभार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए गुजरात उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

डॉ० पी० के० सेठ, संयुक्त सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 मार्च 2004

सं० आई-14011/5/2003-आई०पी०एस०-1—राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सिक्किम राज्य पुलिस के निम्नलिखित सदस्य की भारतीय पुलिस सेवा में परिबीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत सिक्किम संवर्ग प्रदान करते हैं। यह नियुक्ति अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।

चयन सूचि-2003

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1	जेरिय भूटिया (अ०ज०)	28-01-1950

एस० पी० वर्मा, अवर सचिव

सं० आई-14011/5/2003-आई०पी०एस०-1—भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम, (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 23-02-2004 को चयन समिति की दिनांक 15-12-2003 की बैठक में इसके द्वारा बनाई गई 2003 की उक्त चयन सूचि को अनुमोदित कर दिया है जिससे भारतीय पुलिस सेवा के सिक्किम क्षेत्र में वर्ष 2003 में की मौलिक निश्चितियों को भरे जाने हेतु सिक्किम राज्य पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल किया गया है।

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1.	बन्धाल तोपदेन (अ०ज०)	15-11-1935
2.	जेरिय भूटिया (अ०ज०)	28-01-1950

एस० पी० वर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 4 मार्च 2004

सं० ए-32013/9/2002-प्रशा-1(क)—कामिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12-8-2002, 17-10-2003 तथा 4-2-2004 के कार्यालय ज्ञापन सं० 4/13/2001-सी० एस०-1 के द्वारा वर्ष 1991 एवं 1992 के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 अधिकारियों (अवर सचिव ग्रेड) की चयन सूची में उनका नाम शामिल किये जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के गृह मंत्रालय संवर्ग के निम्नलिखित स्थाई अनुभाम अधिकारियों को, जो तदर्थ आधार पर गृह मंत्रालय में अवर सचिव के रूप में कार्यरत हैं, को निम्नांकित ब्यौरे के अनुसार नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 (अवर सचिव) के रूप में नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं०	अधिकारी का नाम तथा संयुक्त वरिष्ठता सूची संख्या	कामिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12-8-2002 के का० ज्ञा० के अनुसार सी० एस० एस० के ग्रेड-1 में निर्धारित वरिष्ठता	नियुक्ति की मान्य तारीख	नियुक्ति की वास्तविक तारीख
चयन सूची-1991				
1.	श्री बी० एन० लाहिड़ी सी एस एल नं०-325	163	01-07-1991	25/03/1991
चयन सूची-1992				
2.	श्री बी० आर० घीमान सी एस एल नं०-3411	50-ए	01-07-1992	04/12/1991

2. उपरोक्त चयन सूचियों से उपरोक्त अधिकारियों को अवर सचिव के पद पर नियुक्ति डॉ० ए० आर० गोयल व अन्य एवं श्री आर० के० ओझा व अन्य द्वारा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया कैट के प्रिन्सिपल बँच में दाखिल किये गये ओ० ए० सं० 2274/2001 एवं 2467/2001 मामलों में अन्तिम निर्णय आने के अग्रधीन होगी।

3. कामिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का० ज्ञा० सं०-4/13/2001 सी० एस०-1, दिनांक 12-8-2002 के अनुसार उपरोक्त अधिकारियों की अवर सचिव के रूप में नियुक्ति उनके अनुमोदित सेवा एवं अवर सचिव के रूप में कल्पित वेतन निर्धारण के लिए क्रमशः 1-7-1991 एवं 1-7-1992 से मान्य होगा। परन्तु, कल्पित वेतन के पुनर्निर्धारण स्वरूप बढ़े हुए वेतन का वास्तविक लाभ उनके अवर सचिव के रूप में कामिक एवं प्रशिक्षण विभाग व मुख्य आदेश के आधार पर प्रारंभिक तदर्थ नियुक्ति की तारीख से प्रोद्भूत होगा। उन अधिकारियों को एफ० आर० 22 के अनुसार वेतन निर्धारण के लिए विकल्प का लाभ प्राप्त करने का भी हक प्राप्त होगा परन्तु ऐसे अधिकारी जो अपने चयन सूची वर्ष के प्रथम जुलाई से पहले ही तदर्थ आधार पर अवर सचिव नियुक्त हो गए थे एवं स्प्लिट विकल (SPLIT OPTION) का लाभ ले चुके थे, पुनर्निर्धारण के विकल्प का लाभ प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।

एस० के० भटनागर, अवर सचिव

सं० ए-32014/01/2004 प्रशा०-1—कामिक तथा प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं० 5/16/2003 सी०-एस०-2 दिनांक 24 दिसम्बर, 2003 के अनुसरण में गृह मंत्रालय संवर्ग के श्री आर० डी० शर्मा, प्रधान निजी सचिव (स्वस्थाने) को केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की निजी सचिव ग्रेड (प्रधान निजी सचिव के रूप में पदनामित) में तदर्थ आधार पर उसी संवर्ग में वेतन श्रेणी रु० 10,000-15,200/- में दिनांक 19 जनवरी, 2004 के पूर्वाह्न से 30-6-2004 तक अथवा पदों के नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों के होने तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया

जाता है। श्री शर्मा को कामिक तथा प्रशिक्षण विभाग में तैनात किया जाता है।

एस० के० भटनागर, अवर सचिव

(राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो)

नई दिल्ली-110066, दिनांक 26 फरवरी 2004

सं० 32/34/60/88—प्रशा०-1/रा० अ० रि० ब्यूरो—
श्री डी० एम० पाढी, उप अधीक्षक (अंगुली छाप) द्वारा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर उन्हें के० अ० छाप ब्यूरो, रा० अ० रि० ब्यूरो, गृह मंत्रालय की सरकारी सेवाओं से दिनांक 29-02-2004 अपराह्न से सेवा निवृत्त किया जाता है।

भूपेन्द्र सिंह धूपिया, सहायक निदेशक (प्रशा०)

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 दिसम्बर 2003

सं० 19/पीए/11/2003—अधिवृषिता की आयु प्राप्त होने पर, दार-ए-सलाम में भारत के हाई कमिशन में प्रथम सचिव, श्री राणा प्रताप, 30 नवम्बर, 2003 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त हो गए और उसी दिन से उन्होंने प्रथम सचिव के पद का कार्यभार त्याग दिया।

आर० एन० वत्स, अवर सचिव (पी ए II)

दिनांक 2 जनवरी 2004

सं० 02/पी ए- /2004—अधिवृषिता की आयु प्राप्त करने पर श्री सुरेश बख्तियानी, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली, में प्रधान निजी सचिव, 31 दिसम्बर, 2003 के अपराह्न को सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त हो गए हैं।

आर० एन० वत्स, उप सचिव (पी ए-II)

नई दिल्ली, दिनांक 14 जनवरी 2004

सं० क्यू/पी ए-I/06/2004—राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा के वर्तमान समय में ग्रेड-IV में कार्यरत श्रीमती प्रीति सरन को 1 जनवरी, 2004 के पूर्वाह्न से सेवा के ग्रेड-III में स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	वर्तमान पद	पदोन्नति पश्चात् पद
1.	श्रीमती प्रीति सरन	भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV	भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III

2. भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III में पदोन्नति के पश्चात् श्रीमती प्रीति सरन ने 01-01-2004 के पूर्वाह्न में विदेश सेवा के ग्रेड-IV के पद प्रभार से मुक्त हो गई हैं और उन्होंने उसी तारीख के पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III का पदभार संभाल लिया है।

बी० एन० रेड्डी, उप सचिव (एफएसपी एवं संवर्ग)

दिनांक 16 जनवरी 2004

सं० क्यू/पी ए I/08/2004—राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में कार्यरत अधिकारी श्री पवंत-नेनी हरीश, को 1 दिसम्बर, 2003 के पूर्वाह्न से इस सेवा के ग्रेड-IV में स्थानापन्न तौर पर नियुक्त करते हैं।

2. श्री पवंतनेनी हरीश को 1-12-03 (पूर्वाह्न) से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV पर नियुक्ति कार्यालय एवं प्रशिक्षण मंत्रालय के दिनांक 15 जुलाई, 1983 के का० जा०

सं० 8/4/84-स्था० (वैतन-1) की शर्तों के अनुसार प्रारूप प्रोन्नति के आधार पर है।

बी० एन० रेड्डी, उप सचिव (एफएसपी/संवर्ग)

दिनांक 29 जनवरी 2004

सं० 04/पीए-II/04—राष्ट्रपति, 1999 एवं 2000 बैच के भारतीय विदेश सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों की उनके नामों के सामने लिखी तारीखों से भारतीय विदेश सेवा में पुष्टि करते हैं—

क्रमांक	अधिकारी का नाम	बैच	पुष्टि की तारीख
1.	श्री अनुराग श्रीवास्तव	1999	29-10-2003
2.	श्री मनोन कुमार महापात्रा	2000	29-10-2003

2. भारतीय विदेश सेवा में उनकी पुष्टि के परिणामस्वरूप अधिकारियों को उनके नामों के संक्षेप उल्लिखित तारीखों से उनके अपने-अपने एसाइनमेंट में सेवा के कनिष्ठ वैतनमान में द्वितीय सचिवों के तौर पर प्रोन्नत किया जाता है।

बी० एन० रेड्डी, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 16 फरवरी 2004

सं० क्यू/पी० एफ०/6624/15/2003/01/पी० एफ०/2004—राष्ट्रपति, श्री कमल नयन चौबे, भारतीय पुलिस सेवा (क्षेत्राध्यक्ष : 88) को 22 दिसम्बर, 2003 से विदेश राज्यमंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) के निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं। यह नियुक्ति राज्यमंत्री के अपने पद पर बने रहने तक है और विदेश राज्यमंत्री के कार्यालय के स्वविवेक पर है।

2. श्री कमल नयन चौबे के 22 दिसम्बर, 2003 की पूर्वाह्न से विदेश राज्यमंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) के कार्यालय में निजी सचिव के पद का कार्यभार सम्भाल लिया है।

के० के० सेनी, प्रशासनिक अधिकारी (सि० ए० १०)

वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय (राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 फरवरी 2004

सं० 3/04 (फा० सं० 23/10/2003-प्रशा० 1 ग) — राष्ट्रपति, श्री न्यायमूर्ति सैयद शाह मुहम्मद कादरी, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, को दिनांक 4-2-2004 से तीन वर्ष की अवधि के लिए अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (आयकर) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करते हैं।

श्री न्यायमूर्ति सैयद शाह मुहम्मद कादरी, दिनांक 4-2-2004 से तीन वर्ष की अवधि के लिए अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क) के अध्यक्ष के पद का अतिरिक्त कार्यभार भी संभालेंगे।

प्रशान्त, निदेशक (न्यायालय)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 12 फरवरी 2004

आयकर संस्थापना

सं० 1 (फा० सं० ए-32012/11/2003-प्रशासन-VI)—
इस विभाग की दिनांक 11-12-2002 की अधिसूचना सं० 6
(फा० सं० ए-32011/1/2002-प्रशासन-VI) जहाँ तक श्री
एन० एन० भट्ट (89521) अपर आयकर अधिकारी, बुधवार
की प्रवर ग्रेड (चैर कार्यात्मक) की स्वीकृति का संबंध है, के
अधिकरण में राष्ट्रपति जी, श्री एन० एम० भट्ट को 1 सितम्बर
2001 से 14300-400-18300 रु० के वेतनमान में प्रवर
ग्रेड (चैर कार्यात्मक) की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

पी० सी० भट्ट, अवर सचिव

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 फरवरी 2004

सं० ए. 19011/2/2004-प्रशा० 2—राष्ट्रपति, श्री के०
एस० मेनन, भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा सेवा : 71, को
वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में दिनांक 23-2-2004
(पूर्वाह्न) से 5 वर्षों के लिए या अपने आदेशों तक, जो भी
पहले हो, 18,400-22,400 रुपए के वेतनमान में संयुक्त
सचिव (बजट) नियुक्त करते हैं।

ईश्वर चंद काफ़ोज, अवर सचिव

(वैज्ञानिक प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 फरवरी 2004

सं० 21/5/00-डीआरटी—राष्ट्रपति, ऋण वसूली अधि-
करण, अहमदाबाद के कार्यालय में 10,000-15,200/- रु० के
वेतनमान में प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त वसूली अधि-
कारी श्री जगदीश त्वरूप की प्रतिनियुक्ति अवधि को 8-2-2004
से 8-2-2005 तक एक वर्ष की अवधि अथवा अगला आदेश
होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

एम० के० मल्होत्रा, अवर सचिव

सं० 15/9/03-डीआरटी—राष्ट्रपति, केन्द्रीय प्रशासनिक
अधिकरण में उप रजिस्ट्रार, श्री जे०पी० राठौर को 3-2-2004
(पूर्वाह्न) से प्रतिनियुक्ति आधार पर पद के भरे जाने की
क्रियाविधि के अनुसार पद के भरे जाने तक या उच्च न्यायालय,
राजस्थान, जोधपुर द्वारा स्थगन आदेश के निरस्त किए जाने
तक, इनमें से जो भी पहले हो, 10,000-15,200/- रुपए के
वेतनमान में प्रतिनियुक्ति के आधार पर ऋण वसूली अधिकरण-
III, दिल्ली के कार्यालय में वसूली अधिकारी के पद पर
नियुक्त करते हैं।

एम० के० मल्होत्रा, अवर सचिव

सं० 15/10/04-डीआरटी—राष्ट्रपति, केन्द्रीय प्रशासनिक
अधिकरण में उप रजिस्ट्रार (तदर्थ) श्री आलोक कुमार खान
को 10,000-15,200/- रु० के वेतनमान में ऋण वसूली अधि-
करण-III, कोलकाता में 30-01-2004 (पूर्वाह्न) से तीन
वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगला आदेश होने तक के लिए,
जो भी पहले हो प्रतिनियुक्ति के आधार पर वसूली अधिकारी
के पद पर नियुक्त करते हैं।

एम० के० मल्होत्रा, अवर सचिव

शुद्धि-पत्र

सं० 15/8/03-डीआरटी—कृपया इस प्रभाग की 5 जनवरी,
2004 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन किया
जाए :

अधिसूचना की पहली पंक्ति में—

के स्थान पर

पढ़ा जाए

राष्ट्रपति, बैंक ऑफ इंडिया में
स्टाफ अधिकारी, एमएम-III
श्री आर० एम० सावले को
नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, बैंक ऑफ इंडिया में
स्टाफ अधिकारी, एमएम-III
श्री आर० एम० सावले को
नियुक्त करते हैं।

एम० के० मल्होत्रा, अवर सचिव

दिनांक 5 मार्च 2004

सं० 14/1/01-डीआरटी—राष्ट्रपति, ऋण वसूली अपीलीय
अधिकरण, चेन्नई के कार्यालय में सचिव/पंजीयक, श्रीमती सरस्वती
रामराज की प्रतिनियुक्ति की अवधि में, 12,750—16,500/-
रुपए के वेतनमान में, 30-04-2004 से 29-04-2005
(अपराह्न) तक एक वर्ष की अवधि अथवा अगला आदेश होने तक,
इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

एम० के० मल्होत्रा, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

विदेश व्यापार महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 मार्च 2004

सं० 4/2004 (6/1947/91/मा० सं० वि०-1/798)—
अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने के बाद श्री सोहन चन्द, विदेश
व्यापार विकास अधिकारी, दिनांक 29-2-2004 (अपराह्न)
से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

के० चंद्रमती, संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 मार्च 2004

सं० ए-19011/5/99-स्थापना—राष्ट्रपति, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री की अपर निजी सचिव, सुश्री विशाखा चन्द्रशेखर कुलकर्णी का अपर निजी सचिव के पद से त्यागपत्र स्वीकार करते हैं।

2. सुश्री विशाखा चन्द्रशेखर कुलकर्णी को तदनुसार 29-02-2004 (अपराह्न) से अपर निजी सचिव के कार्यों से मुक्त किया जाता है।

एल० एस० नेगी, अवर सचिव

कोयला और खान मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 मार्च 2004

सं० 12/7/02-ए० एस०ओ०—अधिवर्षिकी की आयु प्राप्त किए जाने के बाद श्री पी० के० मिश्रा, भारतीय प्रशासनिक सेवा (उड़ीसा : 66) दिनांक 29-2-2004 के (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं। श्री पी० के० मिश्रा ने दिनांक 29-2-2004 (अपराह्न) से कोयला विभाग के सचिव के पद का कार्यभार भी छोड़ दिया है।

टी० के० घोष, निदेशक

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

(लोक उद्यम विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 3 मार्च 2004

सं० ए०-12023/2/2001-प्रशासन—राष्ट्रपति, आई० टी० डी० सी० में उप प्रबंधक (मुख्यालय) श्री राकेश सैनी को भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग में दिनांक 27 फरवरी, 2004 (पूर्वाह्न) अर्थात् इस विभाग में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से अधिकतम 3 (तीन) वर्ष की अवधि तक अथवा अगला आदेश जारी होने तक अल्प अवधि संविदा पर संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

जी० एस० बोथ्याल, निदेशक

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 17 फरवरी 2004

सं० ए-12012/1/2003-पी-1 (.)—श्री विक्रम केसरी नायक, वन रैंजर की 6500-10500/- रु० के वेतनमान में तकनीकी अधिकारी (वानिकी) ग्रेड II के पद पर तदर्थ नियुक्ति को जिसकी अवधि 8-1-2004 को समाप्त हो चुकी है, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से एतद्वारा 9-1-2004 से छः महीने की अवधि अर्थात् 8-7-2004 तक या नियमित पदाधिकारी उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया जाता है।

जफरुल इस्लाम, अवर सचिव

सं० ए-12012/1/2003-पी-1 (.)—श्री राजेश कुमार, अनुसंधान सहायक (वन्यजीव) की 6500-10500/- रु० के वेतनमान में तकनीकी अधिकारी (वानिकी) ग्रेड-II के पद पर तदर्थ नियुक्ति को, जिसकी अवधि 7-10-2003 को समाप्त हो चुकी है, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से एतद्वारा 8-10-2003 से छः महीने की अवधि अर्थात् 7-4-2004 तक या नियमित पदाधिकारी के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया जाता है।

जफरुल इस्लाम, अवर सचिव

दिनांक 19 फरवरी 2004

सं० ए-32012/1/97-पी० I—अधिवर्षिता वय प्राप्त करने पर श्री शिव चरण सिंह, सहायक आयुक्त (वानिकी), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय दिनांक 31 जनवरी, 2004 की अपराह्न को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

जफरुल इस्लाम, अवर सचिव

नई दिल्ली-110003, दिनांक 23 फरवरी 2004

सं० ए-12026/9/2003-भा० व० सेवा I—राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा के संयुक्त ए जी एम यू टी संवर्ग के 1969 बैच के अधिकारी श्री एस० एस० पटनायक को 19 फरवरी, 2004 पूर्वाह्न से अधिवर्षिता की आयु अर्थात् 30-6-2004 तक अथवा अगला आदेश होने तक, जो भी पहले हो, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में अपर वन महानिदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

एम० एल० पराशर, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-11, दिनांक 30 जनवरी 2004

सं० ए०-19013/2/2002-स्था०-I—राजभाषा विभाग के दिनांक 21 जनवरी, 2004 के कार्यालय आदेश संख्या 5/1/2004-रा० भा० (सेवा) के अनुसरण में और 7500-250-12000 रुपए के वेतनमान में सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद पर नियमित आधार पर उनकी नियुक्ति के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (सी एस ओ एल एस) के अधिकारी और इस समय स्वास्थ्य विभाग में तदर्थ आधार पर सहायक निदेशक (राजभाषा) के रूप में कार्यरत श्री नरेन्द्र सिंह को 30 जनवरी, 2004 के अपराह्न से इस मंत्रालय में उनकी झूटी से कार्यमुक्त किया जाता है।

उन्हें विधि कार्य विभाग में रिपोर्ट करने का निदेश दिया जाता है।

डा० अनिल कुमार, अवर सचिव

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 फरवरी 2004

सं० ए० 12025/2/2003-सी०एच०एस०-III—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर, डा० प्रमोद कुमार मिश्रा को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन उपसंवर्ग के विशेषज्ञ ग्रेड-II के अधिकारी के रूप में परिवीक्षा पर नियुक्त करके उन्हें 2 सितम्बर, 2003 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अधीन जी० बी० पन्त अस्पताल, नई दिल्ली में ग्रेड-I सर्जरी के एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर तैनात करते हैं।

तकनीकी त्यागपत्र के स्वीकृत हो जाने के परिणामस्वरूप, डा० प्रमोद कुमार मिश्रा ने 1 सितम्बर, 2003 के अपराह्न से डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापनेत्तर उप-संवर्ग में शल्य-चिकित्सक के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

वाई० के० तलवार, उप सचिव

सं० ए० 12025/6/2001-सी०एच०एस०-II1—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर, डा० अनीता खोखर को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन उपसंवर्ग के विशेषज्ञ ग्रेड-II के अधिकारी के रूप में परिवीक्षा पर नियुक्त करके उन्हें 30-4-2003 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक बी० एम० एम० सी० एवं एस० जे० अस्पताल, नई दिल्ली में पी० एण्ड एस० एम० के सहायक प्रोफेसर के पद पर तैनात करते हैं।

वाई० के० तलवार, उप सचिव

सं० ए०-12025/5/2001-सी० एच० एस०-II1—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर, डॉ० स्मिता कौशिक को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन उपसंवर्ग के विशेषज्ञ ग्रेड-II के अधिकारी के रूप में परिवीक्षा पर नियुक्त करके उन्हें 27-5-2003 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार में जीव-रसायन के सहायक प्रोफेसर के पद पर तैनात करते हैं।

वाई० के० तलवार, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 27 फरवरी 2004

सं० ए-12025/32/91-सीएचएस-I—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा० (श्रीमती) जी० कलाइवाणी को 22-10-91 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 2200-4000 रुपये (संशोधन पूर्व) के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करने हैं। डा० (श्रीमती) जी० कलाइवाणी को केन्द्रीय सरकार

स्वास्थ्य योजना, हैदराबाद के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

सं० ए० 12025/410/91-सी०एच०एस०-I—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर, डा० प्रवीर कुमार मिश्रा को 22 अक्टूबर, 1991 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 2200-4000 रुपये (पूर्व-संशोधित) के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा० प्रवीर कुमार मिश्रा को उसी तारीख से श्रम कल्याण संगठन, कोलकाता के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

सं० ए०-32014/6/01-सी०एच०एस०-I—वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर उनकी प्रोन्नति के परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अधीन कार्यरत, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के उप-संवर्ग में सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी डॉ० नीरजा चंदाना ने दिनांक 6-12-2000 (पूर्वाह्न) को चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया है और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

दिनांक 3 मार्च 2004

सं० ए-12025/105/94-सी०एच०एस०-I—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर, डा० चन्द्रकान्त रघुनाथ शिवडीकर को 21 सितम्बर, 1994 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 2200-4000 रु० (पूर्व-संशोधित) के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा० चन्द्रकान्त रघुनाथ शिवडीकर को उसी तारीख से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मुम्बई के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

दिनांक 4 मार्च 2004

सं० ए० 12025/64/2001-सी०एच०एस०-I—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ० तरुण कुमार को 27-12-2001 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8000-275-13500 रुपये के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डॉ० तरुण कुमार को उसी तारीख से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी
(आयुष) विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 4 मार्च 2004

सं० आर० 14011/21/2002-एच डी/भाचिप(स्था-I)---
डॉ० के० रवि ने अपना स्थानांतरण कर दिए जाने के परिणाम-
स्वरूप 16 जनवरी 2004 के अपराह्न को वरिष्ठ चिकित्सा
अधिकारी (सिद्ध), केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, चेन्नई के
पद का कार्यभार छोड़ दिया और 19 जनवरी 2004 के पूर्वाह्न
को वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (सिद्ध) के पद का कार्यभार
संभाल लिया।

एन० के० लखनपाल, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 फरवरी 2004

सं० 19011/412/2004-स्था०-V—राष्ट्रपति, कृषि एवं
सहकारिता विभाग के सम्पर्क एवं प्रोटोकाल अधिकारी श्री ज्ञान
चन्द को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप
दिनांक 29 फरवरी 2004 अपराह्न से सरकारी सेवा से
सेवानिवृत्त करते हैं।

के० डी० उम्रेती, अवर सचिव

दिनांक 3 मार्च 2004

सं० 12026/5/2001 1/स्था5—राष्ट्रपति श्री धरम पाल,
नियमित सहायक आयुक्त (आई० एन० एम०) कृषि एवं
सहकारिता विभाग की उसी विभाग में उपायुक्त (आई० एन०
एम०) के पद पर तदर्थ नियुक्ति की अवधि 10-11-03 से
आगे 6 माह की अवधि के लिए या आगामी आदेशों तक, इसमें
जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

2. उक्त तदर्थ नियुक्ति से उनको नियमित नियुक्ति के लिए
कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

के० डी० उम्रेती, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 4 मार्च 2004

सं० 5-12/2001-आई०एन०एम०ए—राष्ट्रपति, कृषि तथा
सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत अधीनस्थ कार्यालय
केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण तथा प्रशिक्षण संस्थान,
फरीदाबाद में श्री यू० आर० पाल, विश्लेषक की तदर्थ नियुक्ति
को 28-6-2003 से 17-12-2003 तथा 18-12-2003
से 17-12-2004 तक अथवा पद के नियमित कामिक के
कार्यभार ग्रहण करने तक अथवा अगले आदेशों, इनमें से जो
भी पहले हो के लिए बढ़ाते हैं।

सतबीर सिंह, उप सचिव

सं० 5-12/2001-आई० एन० एम०-ए—राष्ट्रपति, कृषि
तथा सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत अधीनस्थ
कार्यालय केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण तथा प्रशिक्षण संस्थान
फरीदाबाद में श्री के० के० ढिंगरा, वरिष्ठ विश्लेषक की तदर्थ
नियुक्ति को 18-1-2003 से 31-3-2003, 1-4-2003 से
17-12-2003 तथा 18-12-2003 से 17-12-2004
तक अथवा पद के नियमित कामिक के कार्यभार ग्रहण करने तक
अथवा अगले आदेशों, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए, बढ़ाते
हैं।

सतबीर सिंह, उप सचिव

सं० 5-12/2001-आई एन एम- ए—राष्ट्रपति, कृषि तथा सह-
कारिता विभाग, कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत अधीनस्थ कार्यालय
केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण तथा प्रशिक्षण संस्थान, फरी-
दाबाद में श्री आर० एन० घोष, मुख्य विश्लेषक की तदर्थ नियुक्ति
को 18-12-2002 से 17-12-2003 तथा 18-12-2003 से
17-12-2004 तक अथवा पद के नियमित कामिक के कार्यभार
ग्रहण करने तक अथवा अगले आदेशों, इनमें से जो भी पहले हो
के लिए, बढ़ाते हैं।

सतबीर सिंह, उप सचिव

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(भूमि संसाधन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 मार्च 2004

सं० ए-12029/3/2001-प्रशासन—विभागीय पदोन्नति
समिति (समूह-क) की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति,
भूमि संसाधन विभाग में कार्यरत तकनीकी अधिकारी,
श्री एम० एस० नागरा को 3 मार्च, 2004 के पूर्वाह्न से, अगले
आदेश होने तक इस विभाग में पदोन्नति के आधार पर
10,000-325-15,200/- रु० के वेतनमान में सहायक
आयुक्त के पद पर नियुक्त करते हैं।

जी० डी० उपाध्याय, अवर सचिव

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 फरवरी 2004

सं० ए-22011/14/2003-स्था०—राष्ट्रपति, श्री
आशुतोष मिश्र (आईटीएस : 89) जो वर्तमान में कृषि
एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में उप-सचिव के पद पर कार्यरत
हैं, उन्हें 16 फरवरी, 2004 के पूर्वाह्न से पुनः पदनामित
करके निदेशक के रूप में उनके कार्यकाल की शेष अवधि अर्थात्
15-12-2008 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले
होगा, के लिए नियुक्त करते हैं। इसकी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति
का कार्यकाल 16-12-2003 से प्रारंभ हुआ है।

एच० आर० जोशी, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 27 फरवरी 2004

सं० 4 (126)/79-कार्मिक-I—सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में संयुक्त निदेशक, श्री मोहन लाल (कर्मचारी कोड सं० 164) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 29-02-2004 के अपराह्न से सेवानिवृत्त होंगे।

राजकुमार मनचन्दा, उप निदेशक

(डाक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 फरवरी 2004

विषय : डाक सेवा समूह 'ख' में पदोन्नति एवं तैनाती

सं० 9-25/99-एसपीजी—महानिदेशक (डाक) सहर्ष डाक सेवा समूह 'ख' ग्रेड (वेतनमान 7500-250-12000 रुपए) में श्री सुभाष च० नरीक को कल्पित आधार पर 1-11-2003 से तथा वास्तविक रूप में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख और अगले आदेशों तक के लिए उस तिथि से नियुक्त करते हैं जिस तिथि से उनका दण्ड समाप्त हुआ था। उनका नाम श्री बी० एस० पटेल के नाम के नीचे (दिनांक 30-9-2002 की समसंबन्धक अधिसूचना में क्रम सं० 3) और श्री अशोक पाल के नाम के ऊपर (दिनांक 30-9-2002 की समसंबन्धक अधिसूचना में क्रम सं० 4) रखा जाएगा। पदोन्नति होने पर उन्हें जारबंड सक्रिय में तैनात किया गया है।

2. सतर्कता/अनुशासनिक मामला, यदि कोई हो

इस कार्यालय के का० जा० सं० 25-19/88-एसपीजी दिनांक 4-5-88 के साथ परिचालित कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का० जा० सं० 22011/2/86-स्था०(ए) दिनांक 12-1-88 जिसमें (तदुपरांत) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ज्ञापन सं० 22022/4/91-स्था०(ए) दिनांक 14-9-92 द्वारा संशोधन किया गया था, जिसे इस कार्यालय के ज्ञापन सं० 25-19/88-एसपीजी दिनांक 13-10-92 के साथ परिचालित किया गया था, उसमें उल्लिखित किस्म का कोई सतर्कता/अनुशासनिक मामला यदि कार्यचारियों के खिलाफ लंबित है, तो उसे इस कार्यालय से विशिष्ट आदेश प्राप्त किए बिना तैनाती के लिए कार्यमुक्त नहीं किया जाता चाहिए। वे कर्मचारी जिनके विरुद्ध कोई दण्ड प्रवर्तित है, उन्हें दण्ड की मियाद के समाप्त होने से पूर्व पदोन्नति नहीं दी जानी चाहिए। इस संबंध में एक रिपोर्ट तत्काल भेजी जाए।

3. पात्रता के अध्वधीन प्रोन्नति

यदि बाद में यह पाया जाता है कि कोई कर्मचारी इस परीक्षा को देने के लिए नियमों अथवा इस विषयक अनुदेशों के अधीन अथवा किसी अन्य कारण से पात्र नहीं था, तो उसकी प्रोन्नति को रद्द कर दिया जाएगा। उन कर्मचारियों के संबंध

में, यदि कोई हो, जिनका इस परीक्षा में प्रवेश अनंतिम था, यह प्रोन्नति उनके द्वारा परीक्षा देने के लिए पात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय के अध्वधीन होगी।

4. परीक्षा अवधि

डाक सेवा समूह 'ख' में पदोन्नत सभी कर्मचारी दो वर्षों के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे और इस पद पर बने रहने के लिए उनकी उपयुक्तता पर निर्णय दो वर्षों की परिवीक्षा अवधि के पूरा होने के बाद लिया जाएगा। यदि इस अवधि के दौरान कोई कर्मचारी 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अवकाश पर जाता है, तो अवकाश की अवधि के आधार पर परिवीक्षा अवधि को बढ़ा दिया जाएगा।

5. प्रशिक्षण

फिलहाल डाक सेवा समूह 'ख' में बिना किसी प्रशिक्षण के कर्मचारी को सीधी पदोन्नति दी जाएगी। तथापि, जब और जैसे निदेशक, पोस्टल स्टाफ कालेज, गाजियाबाद द्वारा अधिसूचित किया जाएगा, उन्हें निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा।

6. वेतन निर्धारण के लिए विकल्प

अधिकारी यदि एफ आर-22 (1) (क) (1) के अंतर्गत वेतन निर्धारण के लिए तारीख चुनने के लिए विकल्प देना चाहते हैं, तो उन्हें पदोन्नति की तारीख से एक माह के अंदर विकल्प देना होगा।

7. अपने मूल सक्रियों से बाहर आबंटित अधिकारी

आबंटित सक्रिय तैनाती आदेश तत्काल और किसी भी हालत में 6-2-2004 से पहले जारी कर देंगे। वे सक्रिय जहां कर्मचारी फिलहाल कार्य कर रहे हैं, उस सक्रिय से, जहां तैनात किए गए हैं, तैनाती आदेश प्राप्त होते ही तत्काल उन्हें कार्यमुक्त कर देंगे। यदि कोई कर्मचारी प्रोन्नत पद पर प्रभार ग्रहण करने का इच्छुक नहीं है तो वह पन्द्रह दिन के अंदर प्रोन्नति प्रस्ताव को लिख में अस्वीकार कर सकता है, अन्यथा उन्हें मुख्य पोस्टमास्टर जनरल द्वारा कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। संबंधित सक्रिय के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल अपने सक्रिय में अधिकारियों के प्रभार ग्रहण करने और कार्यमुक्त होने के संबंध में 29-2-2004 तक निश्चित ही निदेशालय का एक समेकित रिपोर्ट भेजेंगे।

8. संगत कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट कृपया इस कार्यालय को यथा-समय भेज दी जाए।

आर० एस० यादव, सहायक महानिदेशक (एस जी पी)

दिनांक 9 फरवरी 2004

सं० 4-33/2003-एस पी जी—राष्ट्रपति, भारतीय डाक सेवा समूह 'क' के निम्नलिखित कर्मचारियों को कनिष्ठ समय-मान में स्थानापन्न रूप से पूर्णतः अस्थायी एवं तदर्थ आधार पर उनके नाम के सामने उल्लिखित अवधि अथवा इस प्रबंध

की समाप्ति अथवा कथित ग्रेड में उनकी नियमित नियुक्ति, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं :—

अधिकारी का नाम तैनाती सकल वह अवधि जिसके लिए निदेशालय का अनुमोदन मांगा गया है

1	2	3
(सर्वश्री)		
बी० बी० चौधरी	पश्चिम बंगाल	10-07-01-31-03-02
पी० सी० बाचर	-वही-	20-07-01-28-02-02
ए० एन० गिरि	-वही-	18-05-02-28-02-03
ए० के० भौमिक	-वही-	03-07-02-30-06-03
एस० सी० साहा	-वही-	14-11-02-30-06-03
एन० सी० बर्मन	-वही-	13-11-02-30-06-03
टी० सी० राय	-वही-	01-03-03-30-06-03
एम० आर० विश्वास	-वही-	18-02-03-30-06-03
एस० के० सिन्हा	-वही-	03-04-03-30-06-03
बी० बी० वृन्दावन राव	आन्ध्र प्रदेश	04-01-2के-06-11-2के
के० वेंकट राव	-वही-	30-04-01-31-07-01
बी० कामेश्वर राव	-वही-	16-06-01-22-02-02
ए० वी० कृष्ण राव	-वही-	17-03-03-30-09-03
एन० एल० गुप्ता	उत्तर प्रदेश	04-04-01-20-01-02
सी० पी० जायसवाल	-वही-	27-05-03-30-11-03
बी० बी० एल० श्रीवास्तव	-वही-	14-05-03-31-01-04
के० एस० भट्ट	कर्नाटक	03-05-01-26-02-02
के० जनार्दनन	-वही-	01-06-01-31-03-02
जी० एस० धूली	-वही-	07-05-2के-07-01-01 05-09-02-22-12-02
वी० एस० भंडारी	-वही-	23-04-01-10-09-01 30-04-03-29-08-03
एस० आर० मोराव	-वही-	08-01-01-29-06-01
एच० ए० मोयदीन	-वही-	15-04-02-12-12-02
बी० जी० सोनकर	-वही-	05-06-02-19-12-02
ए० जे० होला	-वही-	06-02-03-01-09-03
वी० एम० प्रभु	-वही-	03-02-03-30-09-03
एस० एन० प्रसाद	बिहार	09-08-01-20-01-02
डी० डी० शर्मा	-वही-	19-03-02-31-07-02
जे० एन० शर्मा	असम	17-03-2के-09-07-2के

1	2	3
एम० सिन्हा फाटक	तमिलनाडु	01-01-02-31-05-02
एन० वेंकटरमन	-वही-	01-01-02-31-10-02
पी० सुब्रामनियन	-वही-	01-01-02-31-03-02
एच० पी० शर्मा	हरियाणा	03-06-02-30-09-02
एम० बी० खेमर	-वही-	31-03-03-30-09-03
डी० सी० वानखेडे	-वही-	23-05-03-30-09-03
जी० टी० राउत	-वही-	26-05-03-30-09-03
एन० वी० सुतार	-वही-	08-05-03-30-09-03
डी० एल० दीवे	-वही-	26-05-03-30-09-03
डी० डी० शर्मा	हिमाचल प्रदेश	01-04-03-30-09-03

आर० एस० यादव, सहायक महानिदेशक
(एसजीपी)

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 1 मार्च 2004

सं० 2000/स्था० (राज० भ०) I/5/1—राष्ट्रपति जी, भारतीय रेल यांत्रिक सेवा के निम्नलिखित प्रोवेंशनरों को प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तिथि से सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

क्र म सं०	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
(सर्वश्री/श्री/कु०)		
1	मनीष पाण्डे	4-9-2000
2	शंकर प्रसाद तिवारी	-वही-
3	विषेक पांडे	11-9-2000
4	अभिषेक शेखर (अनंतिम)	4-9-2000
5	नवेंद्र तालिब	-वही-
6	राजकुमार बेनीवाल	-वही-
7	सुमन राज (अनंतिम)	-वही-
8	आशीष कुमार कुल्हाड़ा	19-9-2000
9	संजय कुमार	4-9-2000
10	राजेश उडके	13-9-2000
11	शिण्डे परिमल नरेन्द्रा	4-9-2000
12	मेशराम तनोज कुमार दामाजी	-वही-
13	मिग्योर थेन्दूय भूतिया	-वही-

ममता कण्डवाल, उप निदेशक
स्था० (जी० आर०), (रेलवे बोर्ड)

दिनांक 4 मार्च 2004

सं० 99/स्था० (राज० भ०) I/5/1—राष्ट्रपति जी, भारतीय रेल यांत्रिक सेवा के निम्नलिखित प्रोबेशनरों को प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तिथि से सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं०	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
	(सर्वश्री/श्री/कु०)	
1.	माकेत कुमार मिश्रा	21-9-99
2.	मनोज जैन	20-9-99
3.	एन० श्रीनिवास रेड्डी	-वही-
4.	नीरज गुप्ता	-वही-
5.	अमिजीत सिंह	-वही-
6.	विषेक कुमार ब्राजपेयी	-वही-
7.	संजय कुमार शर्मा	27-12-99
8.	देवाव्रता चटर्जी	20-9-99
9.	सुरेश कुमार (अनंतिम)	-वही-
10.	अरूण महापात्रो	-वही-
11.	गोविंद पांडे	-वही-
12.	मुनील कुमार शर्मा	27-12-99
13.	जवाहर लाल (अनंतिम)	20-9-99
14.	लोकेश सिंह	-वही-
15.	अकासी देवासहायम	-वही-
16.	भारदा प्रताप सिंह	-वही-

ममता कण्डवाल, उप निदेशक,
स्था० (जी० आर०) (रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 3 मार्च 2004

सं० 97/स्था० (राज० भ०) I/5/1—राष्ट्रपति जी, भारतीय रेल यांत्रिक सेवा के निम्नलिखित प्रोबेशनरों को प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तिथि से सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं०	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
	(सर्वश्री/श्री/कु०)	
1.	अर्चना मित्तल	15-03-97
2.	शिवेन्द्र श्रीवास्तव	15-03-97
3.	सुयश नारायण	15-03-97
4.	राजाजी मेशरा म	15-03-97
5.	ओंकार सिंह	15-03-97
6.	अमित श्रीवास्तव	15-03-97
7.	सिद्धार्थ अग्रवाल	15-03-97
8.	दीपक सपरा	15-03-97
9.	भोम प्रकाश शाँ	14-06-97

मनीश कुमार, संयुक्त निदेशक,
स्था० (जी० आर०) (रेलवे बोर्ड)

सं० 94/स्था० (राज० भ०) I/5/1—राष्ट्रपति जी, भारतीय रेल यांत्रिक सेवा के निम्नलिखित प्रोबेशनरों को प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तिथि से सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

क्र० सं०	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
	(सर्वश्री/श्री/कु०)	
1.	आशीष जैन	11-03-95
2.	अनमोल मदान	23-03-95
3.	समीर लोहानी	24-05-95
4.	रमनीश मोहन	11-03-95
5.	मनीश कुमार गुप्ता	11-03-95
6.	नीलेश कुमार	11-03-95
7.	पंकज सिंह	11-03-95
8.	आशीष गर्ग	11-03-95
9.	अमित रामटेके	11-03-95
13.	तरून हरिया	11-03-95
11.	रमणीक सिंह	11-03-95
12.	गौरव अग्रवाल	11-03-95
18.	उज्जल हलदर	11-03-95
14.	गनजी सुमाना	19-08-97
15.	अमितावा चौधरी	11-03-95
16.	शील भट्टा	23-04-95
17.	उदय सिंह मीणा	11-03-95
18.	पार्थ प्रतीम राय	14-03-97
19.	सर्वम्या बैरवा	28-10-95

मनीश कुमार, संयुक्त निदेशक,
स्था० (जी० आर०) (रेलवे बोर्ड)

सं० 98/स्था० (राज० भ०) I/1/2—राष्ट्रपति जी, भारतीय रेल यांत्रिक सेवा के निम्नलिखित प्रोबेशनरों को प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तिथि से सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

क्र० सं०	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1	2	3
	(सर्वश्री/श्री/कु०)	
1.	प्रशांत सरन	15-03-1998
2.	सुबीर कुमार सिन्हा	-वही-
3.	सयातन चक्रवर्ती	-वही-
4.	अंजलि वाशने	-वही-
5.	इंद्रजीत दिहाना	-वही-
6.	नीरज श्रीवास्तव	-वही-

1	2	3
7.	संजीव त्रिपाठी	05-04-1998
8.	यतीश कुमार	16-03-1998
9.	प्रशांत कुमार	13-08-1998
10.	अमनदीप कपूर	-वही-
11.	विमल टोपनो	-वही-

मनीष कुमार, संयुक्त निदेशक
स्था० (जी० आर०) (रेलवे बोर्ड)

सं० 99/स्था० (राज० भ०) I/1/4—राष्ट्रपति जी, भारतीय रेल यांत्रिक सेवा के निम्नलिखित प्रोबेशनरों को प्रत्येक के सामने दर्शायी गई तिथि से सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

क्र० सं०	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
	(सर्वश्री/श्री/कु०)	
1.	विनोद कुमार	29-05-1999
2.	नीलोत्तपाल डे	-वही-
3.	स्वयंभू आर्या	-वही-
4.	आलोक प्रियदर्शी	-वही-
5.	आलोक कुमार मिश्रा	-वही-
6.	राजू प्रसाद	-वही-
6.	महेश कुमार राय	26-07-1999
8.	आशीष गरबयाल	29-05-1999

मनीष कुमार, संयुक्त निदेशक
स्था० (जी० आर०) (रेलवे बोर्ड)

सं० 2001/स्था० (राज० भ०) I/1/6—राष्ट्रपति जी भारतीय रेल यांत्रिक सेवा के निम्नलिखित प्रोबेशनरों को प्रत्येक के सामने दर्शायी गई तिथि से सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

क्र० सं०	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1	2	3
	(सर्वश्री/श्री/कु०)	
1.	अभिषेक रघुवंशी	29-01-2002
2.	प्रशांत कुमार सिंह	22-09-2001
3.	शुभन मोहापातरा	08-09-2001
4.	शवुंजय कृष्णा	07-01-2002
5.	प्रानजोल चन्द्रा	08-09-2001
6.	वैभव सिंह	-वही-
7.	अनिरुद्र कुमार भारती	-वही-

1	2	3
8.	अनुपम कुमार चंदन	08-09-2001
9.	अमितोज बल्लभ	08-09-2001
10.	रश्मि दिवाकर	05-09-2002
11.	अमित सीराष्ट्री	06-01-2003

मनीष कुमार, संयुक्त निदेशक,
स्था० (जी० आर०) (रेलवे बोर्ड)

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 मार्च 2004

सं० 1/2004 (मि० सं० ए०-38012/1/2003-प्रशा० एक) — अधिवाषिता की आयु प्राप्त होने पर, श्री आर० एस० चड्ढा जोकि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह-क) सेवा में मुख्य अभियन्ता के पद पर कार्यरत थे भारत सरकार की सेवा से 31 जनवरी, 2004 के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

विकास चंद्र काजला, अवर सचिव

सं० 4/2004 (मि० सं० ए०-38012/1/2003-प्रशा० एक) — अधिवाषिता की आयु प्राप्त होने पर श्री यादवेश्वर राव, जो कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह-क) सेवा में निदेशक के पद पर कार्यरत थे भारत सरकार की सेवा से 31 जनवरी, 2004 के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

विकास चंद्र काजला, अवर सचिव

सं० 5/2004 (मि० सं० ए०-38012/1/2004-प्रशा० एक) — अधिवाषिता की आयु प्राप्त होने पर, श्री एन० के० कारमाकर, जोकि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह-क) सेवा में सहायक निदेशक-I के पद पर कार्यरत थे, भारत सरकार की सेवा से 31 जनवरी, 2004 के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

विकास चंद्र काजला, अवर सचिव

दिनांक 5 मार्च, 2004

सं० /2004 (फाइल सं० ए०-32013/4/2002-प्रशा० एक) — राष्ट्रपति, केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह-क) सेवा के अधिकारी श्री पी० एस० म्हास्के को पद रिक्तता के कारण केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में उनकी अनुपस्थिति में उसी सेवा के निदेशक/अधीक्षण अभियन्ता (सामान्य ग्रेड) के ग्रेड में रु० 3,700-5,000/- (संशोधन पूर्व) के वेतनमान में, दिनांक 9 दिसम्बर 2003 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक के लिये नियुक्त करते हैं।

विकास चंद्र काजला, अवर सचिव

सं० 2004 (फाइल सं० ए-32013/4/2002-प्रशा० एक) —राष्ट्रपति, केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह-क) सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में उसी सेवा के निदेशक/अधीक्षण अभियन्ता (सामान्य ग्रेड) के ग्रेड में रु० 3700-5000 (संशोधन पूर्व) के वेतनमान में, उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से अगले आदेश जारी होने तक के लिये नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं०	नाम	नियुक्ति की तारीख
1	2	3

(सर्वश्री)		
1	एस० जी० तेनपे	02-06-2003(पूर्वाह्न)
2	के० सन्धानम	24-04-2003(पूर्वाह्न)
3	जं० एन० माथुर	24-04-2003(पूर्वाह्न)
4	प्रभात मोहन	25-04-2003(पूर्वाह्न)
5	सौ० धनमुगम	26-05-2003(पूर्वाह्न)
6	मोती लाल	24-04-2003(पूर्वाह्न)
7	एस० बी० पराटे	24-04-2003(पूर्वाह्न)
8	एस० के० पटनायक	24-04-2003(पूर्वाह्न)
9	एम० रामाचन्द्रा सिंह	22-05-2003(पूर्वाह्न)
10	श्रीमती अन्जुलि चन्द्रा	24-04-2003(पूर्वाह्न)
11	रमेश कुमार-2	28-04-2003(पूर्वाह्न)
12	मंगल सिंह	16-09-2003(पूर्वाह्न)

1	2	3
13	अमर सिंह-1	09-12-2003(पूर्वाह्न)
14	कालिका प्रसाद	30-12-2003(पूर्वाह्न)
15	एम० एस० मनोज	05-02-2004(पूर्वाह्न)
16	धनी राम	05-02-2004(पूर्वाह्न)
17	दलीप कुमार जैन	05-02-2004(पूर्वाह्न)
18	एस० एस० यात्री	05-02-2004(पूर्वाह्न)

विकास चंद्र काजला, अवर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 फरवरी 2004

सं० 7/3/2001-जी०डब्ल्यू०-1—राष्ट्रपति, निम्नलिखित व्यक्तियों को केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में 8,000-275-13,500 रु० के वेतनमान में अस्थायी आधार पर कनिष्ठ जल भू वैज्ञानिक के पद पर वैज्ञानिक-ख के ग्रेड में उनके नाम के सामने दर्शाए गए तारीख से नियुक्त करते हैं :—

क्र० सं०	नाम	कार्यग्रहण की तारीख
1.	श्री विकास रंजन	24-12-2003(पूर्वाह्न)
2.	श्री श्याम सुंदर हेम्ब्रम	02-01-2004(पूर्वाह्न)

वे अपने पद के कार्यग्रहण की तारीख से दो वर्षों की परीक्षा पर होंगे जिसे आवश्यक सम्झे जाने पर सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार बढ़ाया जा सकता है।

सोहन एस० सैनी, अवर सचिव

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110 011, the 27th February 2004

No. A.22012/1/2004-PMA.—The President is pleased to appoint Smt. V. Vidyavathi, IAS (KN:91), as Deputy Secretary in the Prime Minister's Office with effect from the forenoon of 26th February, 2004 for a period of four years or until further orders, whichever event takes place earlier.

P.K. ROY, Under Secy.

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 1st March 2004

No. RS/3(i)/2004/13-Perl.—The Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Gian Chand Miglani, Deputy Secretary in the Rajya Sabha Secretariat to officiate as Director in that Secretariat, with effect from the forenoon of the 1st March, 2004, until further orders.

2. The above appointment would be subject to the orders of Delhi High Court at the time of final disposal of Writ Petition No. 3025/88.

P.R. GUHA ROY, Dy. Secy.

No. RS/3(i)/2004/14-Perl.—Shri Alok Kumar Chatterjee who was appointed to officiate in the cadre of Deputy Secretary against a leave vacancy *vide* Notification No. RS/3(i)/2003/11-Perl. dated 21st April, 2003 has now been appointed in that cadre on a regular basis with effect from the forenoon of 1st March, 2004 until further orders.

2. Smt. Vanjula G. Rajan who was appointed to officiate in the cadre of Under Secretary against a deputation vacancy *vide* Notification No. RS/2(ii)/2002/72-Perl. dated 11th October, 2002 has now been appointed in that cadre on a regular basis with effect from the forenoon of 1st March, 2004 until further orders.

3. The above appointments would be subject to the orders of Delhi High Court at the time of final disposal of Writ Petition No. 3025/88.

P.R. GUHA ROY, Dy. Secy.

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 17th February 2004

No. PF.1878(3)/GN-5089/AN-I/2004.—The Speaker is pleased to grant proforma promotion to Shri R. Kothandaraman, Deputy Secretary in the scale of pay of Rs. 12750—16500, who is presently on deputation to Nagaland Assembly Secretariat, as Director in the scale of pay of Rs. 15100-400-18300 with effect from 16th February, 2004 until further orders.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

No. PF.1742(3)/GN-5090/AN-I/2004.—The Speaker is pleased to appoint Shri U.S. Saxena, Deputy Secretary in the scale of pay of Rs. 12750—16500 to the grade of Director in the scale of pay of Rs. 15100-400-18300 with effect from 16th February, 2004 until further orders.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

No. PF. 1497(3)/GN-5091/AN-I/2004.—The Speaker is pleased to appoint Shri Hardev Singh, Under Secretary who was appointed as Deputy Secretary on *ad-hoc* basis *vide* Notification No. GN-4998/2003 dated 25th September, 2003 to the grade of Deputy Secretary in the scale of pay of Rs. 12750-375-16500 on regular basis with effect from 16th February, 2004 until further orders.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

No. PF. 1814(3)/GN-5092/AN-I/2004.—The Speaker is pleased to appoint Smt. Sudesh Luthra, Under Secretary in the scale of pay of Rs. 12000-16500 to the grade of Deputy Secretary in the scale of pay of Rs. 12750-375-16500 on *ad-hoc* basis with effect from 16th February, 2004 until further orders.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

No. PF. 2502(3)/GN-5093/AN-I/2004.—The Speaker is pleased to appoint Shri R.C. Tiwari, Assistant Director, who was appointed as Under Secretary on *ad-hoc* basis *vide* Notification No. GN-5039/2003 dated 27th October, 2003 to the grade of Under Secretary in the scale of pay of Rs. 12000-375-16500 on regular basis with effect from 16th February, 2004 until further orders.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

No. PF. 2588(3)/GN-5094/AN-I/2004.—The Speaker is pleased to appoint Shri T.G. Chandrasekhar, Assistant Director in the scale of pay of Rs. 10000—15200 to the grade of Under Secretary in the scale of pay of Rs. 12000-375-16500 with effect from 16th February, 2004 until further orders.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

No. PF. 2304(3)/GN-5095/AN-I/2004.—The Speaker is pleased to appoint Smt. Anita B. Panda, Assistant Director in the scale of pay of Rs. 10000—15200 to the grade of Under Secretary in the scale of pay of Rs. 12000-375-16500 on *ad-hoc* basis with effect from 16th February, 2004 until further orders.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

No. PF. 1341(3)/GN-5096/AN-I/2004.—The Speaker is pleased to appoint the following Executive/Legislative/Committee/Protocol Officers in the scale of pay of Rs. 8000—13500 to the grade of Assistant Director in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200 in the order shown below, with effect from 16th February, 2004 until further orders :—

1. Shri Narain Dass
2. Shri Ravi Chand Jain

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

No. PF. 3000(3)/GN-5097/AN-I/2004.—The Speaker is pleased to appoint the following Senior Executive/Legislative/Committee/Protocol Assistants who were appointed as Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer on ad-hoc basis *vide* Notification Nos. GN-5006/2003 dated 25th September, 2003 and GN-5042/2003 dated 27th October, 2003, to the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 on regular basis with effect from 16th February, 2004 until further orders :—

1. Shri Joginder Singh
2. Shri A.K. Sood
3. Shri A.S.K. Das

2. They will be on probation in the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer for a period of two years with effect from 16th February, 2004 upto 15th February, 2006.

3. Their *inter-se-seniority* in the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer will be regulated as per the new seniority orders as contained in R&CS Order No. PDA-1076/2003 dated 20-12-2003.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

No. PF. 1373(3)/GN-5098/AN-I/2004.—The Speaker is pleased to appoint the following Senior Executive/Legislative/Committee/Protocol Assistants in the scale of pay of Rs. 7450—11500 to the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 on *ad-hoc* basis with effect from 16th February, 2004 until further orders :—

1. Smt. Narinder Kaur Matharu
2. Shri Raj Kumar Sharma
3. Shri Sovan Kumar Ganguli

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

No. PF. 2571(3)/GN-5118/AN-I/2004.—On reversion from deputation, Shri V.R. Ramesh, Private Secretary to Hon'ble

Speaker, Lok Sabha, has resumed duties as Deputy Secretary in the scale of pay of Rs. 12750-375-16500 in the Secretariat with effect from the afternoon of 16th February, 2004.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

No. PF. 2571(3)/GN-5119/AN-I/2004.—The Speaker is pleased to appoint Shri V.R. Ramesh, Deputy Secretary in the scale of pay of Rs. 12750—16500 to the grade of Director in the scale of pay of Rs. 15100-400-18300 on ad-hoc basis with effect from 17th February, 2004 until further orders.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

No. PF. 2571(3)/GN-5120/AN-I/2004.—The Speaker is pleased to appoint Shri V.R. Ramesh, Director on ad-hoc basis as Private Secretary to Hon'ble Speaker, Lok Sabha (Shri Manohar Joshi) in the scale of pay of Rs. 15100-400-18300 with effect from 17th February, 2004 until further orders.

2. His appointment as Private Secretary will be on tenure basis and during the pleasure of and co-terminus with the term of the present Speaker, Lok Sabha.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

The 20th February 2004

No. 15/10/2003/AN-I/GN-5125/2004.—Consequent upon their selection to the post of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer on the basis of written examination and personal interview held on 8th—10th February, 2002 and 27th—28th December, 2002 respectively in Lok Sabha Secretariat, the Speaker is pleased to appoint the following persons to the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer in the scale of pay of Rs. 8000—13500 in an officiating capacity with effect from the forenoon of 12th February, 2004 until further orders.

1. Ms. Bharti Pruthi
2. Smt. Archana Pathania.

2. They will be on probation in the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer for a period of one year with effect from 12th February, 2004 upto 11th February, 2005.

3. Their *inter-se-seniority* in the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer will be regulated on the basis of new seniority orders new seniority orders as contained in R&CS Order No. PDA-1067/2003 dated 20th December, 2003.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

The 24th February 2004

No. PF. 1583(3)/AN-I/GN-5128/2004.—Consequent upon dissolution of Thirteenth Lok Sabha on 6th February, 2004, the services of Shri Shital Kumar Sharma who was appointed as Officer on Special Duty (IT) stood terminated with effect from 6th February, 2004 (AN).

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

The 1st March 2004

No. PF. 1024(3)/GN-5138/AN-I/2004.—The Speaker is pleased to appoint Shri P.D. Malvalia, Under Secretary in the scale of pay of Rs. 12000-16500 to the grade of Deputy Secretary in the scale of pay of Rs. 12750-375-16500 with effect from 25th September, 2003—the date from which his junior Shri Hardev Singh in the grade of Under Secretary was appointed as Deputy Secretary on *ad-hoc* basis, until further orders.

2. The period of his appointment as Deputy Secretary with effect from 25th September, 2003 upto 29th February, 2004 will be treated as notional for which he shall not be paid arrears of pay and allowances.

3. Shri Malvalia will rank senior to Shri Hardev Singh but junior to Shri R.S. Misra in the grade of Deputy Secretary.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 27th February 2004

No. A-19013/4/98-Ad.I.—Consequent upon his selection to the post of Joint Secretary in the M/o Parliamentary Affairs on deputation basis in the pay scale of Rs. 18400-500-22400/- Shri P. Gopalakrishnan presently Director, Cabinet Secretariat relinquished and charge of the post of Director in the Cabinet Secretariat w.e.f. the afternoon of 26th February 2004.

SUNIL MISHRA, Dy. Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 25th February 2004

No. F.6(1794)/99-Adm.I.—Consequent on his appointment as Chairman, National Commission on Farmers (NCF), Shri Som Pal relinquished charge of the office of Member, Planning Commission w.e.f. 10.02.2004 (FN) and the President is pleased to accept his resignation from the office of Member, Planning Commission w.e.f. 10.02.2004(FN).

K.K. CHHABRA, Under Secy.

The 26th February 2004

CORRIGENDUM

No. F.6(1794)/99-Adm.I.—In view of Department of Agriculture & Cooperation's Order No. 9-2/2004-Policy (ES) dated 12th February, 2004, the date of acceptance of resignation of Shri Som Pal from the office of Member, Planning Commission indicated in the Planning Commission's Notification of even number dated 25.02.2004 may be read as 10.02.2004(AN) instead of 10.02.2004(FN).

K.K. CHHABRA, Under Secy.

The 27th February 2004

No. F.6(1813)/2000-Adm.I.—On attaining the age of superannuation, Shri Y.R. Nandwani, CSS, Deputy Secretary (in situ), Planning Commission retires from Government service w.e.f. the afternoon of 29.2.2004.

K.K. CHHABRA, Under Secy.

No. A-31013/2/2001-Adm.II.—In continuation of Planning Commission's Notification No. A-12025/8/99-Adm.II, dated 31.7.2002, the President is pleased to appoint Shri A. Muralidharan, Research Officer (Civil Engineering), Planning Commission in a substantive capacity w.e.f. 29.07.2003 (FN).

K.K. CHHABRA, Under Secy.

MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME
IMPLEMENTATIONNATIONAL SAMPLE SURVEY ORGANISATION
(FIELD OPERATIONS DIVISION)

New Delhi-110066, the 3rd March 2004

No. A-12034/2/2003-Est.I.—On attaining the age of superannuation, the following Superintendents of this Division have retired from government service on the dates indicated against each:—

Sl. No.	Name	Place of Posting	Date of Retirement
	S/Shri		
1.	Ashutosh Karan	Kolkata	30.11.2003 (AN)
2.	L. Khyriem	Shillong	30.11.2003 (AN)
3.	S.S. Patil	Sholapur	30.11.2003 (AN)
4.	S. Jayapalan	Thanjavur	31.12.2003 (AN)
5.	D.S. Tripathi	Fatehpur	31.12.2003 (AN)

VEDANTAM GIRI, Chief Administrative Officer

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi-110001, the 1st March 2004

No. 193/22/3/2004(KM)/4173.—On attaining the age of superannuation, Shri Krishan Murari, Section Officer in the Election Commission of India, retired from service w.e.f. the afternoon of 29.02.2004.

NARENDRA N. BUTOLIA, Under Secy.

No. 193/22/2/2004 (SPS)/4176.—On attaining the age of superannuation, Shri Sharan Pal Singh, Secretary in the Election Commission of India, retired from service w.e.f. the afternoon of 29.02.2004.

NARENDRA N. BUTOLIA, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 1st March 2004

No. A.32013/6/2003-Admn.I(L.D.).—The President is pleased to appoint Shri B. R. J. Mina, Assistant Legislative Counsel (Hindi) in the Official Languages Wing of the Legislative Department, Ministry of Law and Justice to officiate as Deputy Legislative Counsel (Hindi) in the pay scale of Rs. 12000-375-16500 in the said Wing of this Department with effect from the forenoon of 27th February, 2004 and until further orders.

KIRAN PURI, Dy. Secy.

(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi-110001, the 25th February 2004

No. A-12023/19/88-Admn.III(LA).—On attaining the age of 62 years, Shri Basant Mal Kothari, Accountant Member, Income Tax Appellate Tribunal stand retired on superannuation from Government service with effect from the afternoon of 25th February 2004 in accordance with rule 11 of the Income Tax Appellate Tribunal Members (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1963.

YASHWANT SINGH, Under Secy.

(DEPARTMENT OF JUSTICE)

New Delhi, the 25th February 2004

No. K.13018/1/2003.US.I.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (1) Shri Mukesh Kumar Rasikbhai Shah, (2) Shri Kalpesh Satyendra Jhaveri, (3) Shri Akil Abdulhamid Kureshi and (4) Shri Dhurubhai Naranbhai Patel, to be Additional Judges of the Gujarat High Court, in that order of seniority, for a period

of two years each with effect from the date they assume charge of their respective office.

DR. P.K. SETH, Jt. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 4th March 2004

No. I-14011/5/2003-IPS.I.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following member of Sikkim Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate him to the cadre of Sikkim under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) rules, 1954. The appointment will take effect from the date of issue of this notification.

SELECT LIST 2003

Sl.No.	Name of the officer (S/Shri)	Date of Birth
1.	Tshering Bhutia	28.01.1950

S.P. VERMA
Under Secretary

No. I-14011/5/2003-IPS.I.—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has on 23.02.2004, approved the Select List of 2003, prepared by the Selection Committee in its meeting held on 15.12.2003, containing the names of the following State Police Service Officers of Sikkim, towards filling up two substantive vacancies in the IPS Sikkim Cadre during 2003.

S.No.	Name of the officer (S/Shri)	Date of Birth
1.	Wangyal Topden (ST)	15.11.1955
2.	Tshering Bhutia	28.01.1950

S.P. VERMA
Under Secretary

New Delhi, the 4th March, 2004

No. A-32013/9/2002-Ad.I.—Consequent on inclusion of their names in the Select List of Grade I of Central Secretariat Service (Under Secretary Grade) by the Department of Personnel and Training vide their O.M. No. 4/13/2001-CS.I dated the 12th August 2002, 17th October, 2003 and 4th February, 2004, the President is pleased to appoint the following permanent Section Officers of CSS Cadre of Ministry of Home Affairs and officiating as Under Secretaries

on adhoc basis in the Ministry of Home Affairs, to the Grade. I of CSS (Under Secretary) on regular basis as per details indicated below :-

Name of the Officer and CSL No.	Seniority Assigned in Grade.I of CSS as per DP& Trg's O.M. dated 12.8.2002	Deemed date of appointment	Actual date of appointment
---------------------------------	--	----------------------------	----------------------------

SELECT LIST-1991

S/Shri

B.N. Lahiri, CSL No. 3251	163	01.07.1991	25.03.1991
------------------------------	-----	------------	------------

SELECT LIST-1992

B.R. Dhiman, CSL No. 3411	80-A	01.07.1992	04.12.1991
------------------------------	------	------------	------------

2. The appointment of the above officers to the post of Under Secretary from the above Select Lists shall be subject to the final decision in the OA Nos. 2274/2001 and 2467/2001 filed in the Hon'ble CAT, Principal Bench by Dr. A.R. Goyal and Others and Shri R.K. Ojha and Others Vs. Union of India.

3. As per DP&Trg's O.M. No. 4/13/2001-CS.I dated the 12th August 2002 the appointments of the above mentioned officers may be deemed to have been made effective with effect from 1.7.1991 and 1.7.1992 respectively for the purpose of approved service and for fixing their pay as Under Secretary on a notional basis. However, the actual benefit of higher pay on account of notional re-fixation will accrue from the dates of their initial appointment as Under Secretary on adhoc basis ordered centrally by the Department of Personnel and Training. These officers shall also be entitled to exercise the benefit of option for fixation of their pay as provided under provisions of FR-22. However, such officers who were promoted as adhoc Under Secretary prior to 1st July of their Select List year and had availed of the benefit of split option shall not be eligible to re-exercise the option.

S.K. BHATNAGAR, Under Secy.

No. A-32014/01/2004-Ad.I—In pursuance of Department of Personnel & Trainings OM No. 5/16/2003-CS.II dated 24th December, 2003, Shri R.D. Sharma, PPS (in situ) of the cadre of Ministry of Home Affairs is promoted on adhoc basis to the Private Secretary Grade (Designated as Principal Private Secretary) of CSSS, in the same cadre, in the scale of Rs. 10000-15200/- with effect from the forenoon of 19th January, 2004 for a period upto 30.6.2004 or till the posts are filled up on regular basis or till further orders whichever is earlier. Shri Sharma is posted to Department of Personnel & Training.

S.K. BHATNAGAR, Under Secy.

(NATIONAL CRIME RECORDS BUREAU)

New Delhi-110 066, the 26th February 2004

No. 32/34/60/88-Ad.I/NCRB—on attaining the age of superannuation, Shri D.M. Padhy, Dy. S(FP) of CFPB, National Crime Records Bureau, Ministry of Home Affairs, retires from Government service w.e.f. the afternoon of 29.02.2004.

B.S. DHUPIA, Asstt. Dir. (Admn.)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 12th December 2003

No. 19/PA-II/2003—On attaining the age of superannuation, Shri Rana Pratap, First Secretary in the High Commission of India, Dar-es-Salaam, retired from Government Service in the afternoon of 30th November 2003 and relinquished the charge of the post of First Secretary on the same day.

R.N. VATS, Under Secy. (PA-II)

The 2nd January 2004

No. 02/PA-II/2004—On attaining the age of superannuation, Shri Suresh Bakhtiani PPS in the Ministry of External Affairs, New Delhi, retired from Government Service in the afternoon of 31st December 2003.

R.N. VATS, Under Secy. (PA-II)

New Delhi, the 14th January 2004

No. Q/PA-I/06/2004—The President is pleased to appoint Smt. Preeti Saran presently in the Grade IV of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade-III of the service with effect from the forenoon of 1st January 2004.

Name of the Officer	Present Grade	Grade after promotion
Smt. Preeti Saran	Grade-IV of IFS	Grade-III of IFS

2. On promotion to Grade III of IFS, Smt. Preeti Saran relinquished charge of the post of Grade IV of IFS on the forenoon of 01.01.2004 and assumed charge of the post of Grade III of the IFS, with effect from forenoon of the same date.

B.N. REDDY, Dy. Secy. (FSP & Cadre)

The 16th January 2004

No. Q/PA-I/08/2004—The President is pleased to appoint Shri Parvathaneni Harish, an officer in Junior Administrative Grade of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade-IV of the service with effect from the forenoon of 1st December, 2003.

2. The appointment of Shri Parvathaneni Harish to Grade IV of the IFS w.e.f. 01.12.03 (F/N) is on the basis of a Proforma promotion in terms of O.M. No. 8/4/84-Estt(pay-1) dated the 15th July, 1985 of Ministry of Personnel & Training.

B.N. REDDY, Dy. Secy. (FSP/Cadre)

The 29th January 2004

No. 04/PA-II/04.—The President is pleased to confirm the following officers of the Indian Foreign Service 1999 & 2000 batches in the Indian Foreign Service with effect from the dates mentioned against their names :—

S. No.	Name of the Officer	Batch	Date of confirmation
	(S/Shri)		
1.	Anurag Srivastava	1999	29th October 2003
2.	Manoj Kumar Mohapatra	2000	29th October 2003

2. Consequent upon their confirmation in the Indian Foreign Service, the officers are promoted as Second Secretaries in the Junior Scale of the service in their respective assignment with effect from the dates mentioned against their names.

B.N. REDDY, Dy. Secy.

New Delhi, the 16th February 2004

No. Q/PF/6624/15/2003/01/PF/2004.—The President is pleased to appoint Shri Kamal Nayan Choubey, IPS (Markhand : 86) as Private Secretary to the Minister of State for External Affairs (Shri Digvijay Singh) with effect from 22nd December 2003. This appointment will be co-terminus with and at the discretion of the Office of the Minister of State for External Affairs.

2. Shri Kamal Nayan Choubey has assumed charge of the post of Private Secretary in the Office of the Minister of State for External Affairs (Shri Digvijay Singh) in the forenoon 22nd December 2003.

K.K. SAINI, Admn. Officer (PF)

MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS (DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 27th February, 2004

No. 3/2004. (F. No. 23/10/2002-Ad-I.C).—The President is pleased to appoint Mr. Justice Syed Shah Mohammad Quadri, Retired Judge of the Supreme Court as Chairman, Authority for Advance Rulings (Income Tax) for a period of three years w.e.f. 04.02.2004.

Mr. Justice Syed Shah Mohammad Quadri will also hold additional charge of the post of Chairman, Authority for Advance Rulings (Customs & Central Excise) for a period of three years w.e.f. 04.02.2004.

PRASHANT, Dir. (Hqrs.)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

New Delhi, the 12th February 2004

INCOME TAX ESTABLISHMENT

No. 1. (F.No. A-32012/11/2003-Ad.VI).—In supersession of this Department's Notification No. 6 (F.No. A.32011/1/2002-Ad. VI) dt. 11.12.2002 in so far as it relates to the grant of Selection Grade (Non Functional) to Sh. N.N. Bhatt (89521), Addl. CIT, Gujarat, the President is pleased to grant Selection Grade (Non-Functional) with the pay scale of Rs. 14300-400-18300 to Sh. N.N. Bhatt with effect from 1st September, 2001.

P.C. BHATT, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 23rd February 2004

No. A. 19011/2.2004-Adm.II.—The President is pleased to appoint Shri K.S. Menon, IA & AS : 71, as Joint Secretary (Budget) in the pay scale of Rs. 18,400-22,400, in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, with effect from 23.02.2004 (FN), for a period of 5 years or until further orders, whichever event takes place earlier.

I.C. KAMBOJ, Under Secy.

(BANKING DIVISION)

New Delhi, the 27th February 2004

No. 21/5/00-DRT.—The President is pleased to extend the period of deputation of Sh. Jagdish Swaroop, Recovery Officer in the pay scale of Rs. 10,000-15,200/- in the office of Debts Recovery Tribunal, Ahmedabad for a further period of one year w.e.f. 9.2.2004 to 8.2.2005 or until further orders, whichever is earlier.

M. K. MALHOTRA, Under Secy.

No. 15/9/03-DRT.—The President is pleased to appoint Sh. J. P. Rathore, Deputy Registrar, Central Administrative Tribunal to the post of Recovery Officer in the office of the Debts Recovery Tribunal-III, Delhi on deputation basis in the pay scale of Rs. 10,000-15,200 w.e.f. 3.2.2004 (FN) till such time the post is filled up as per the procedure on deputation basis or the vacation of the stay by the High Court of Rajasthan at Jodhpur, whichever is earlier.

M. K. MALHOTRA, Under Secy.

No. 15/10/04-DRT.—The President is pleased to appoint Sh. Alok Kumar Khan, Deputy Registrar (Ad-hoc) Central Administrative Tribunal to the post of Recovery Officer in the office of Debts Recovery Tribunal-III, Kolkata on deputation basis in the pay scale of Rs. 10,000-15,200 w.e.f. 30.1.2004 (F. N.) for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.

M. K. MALHOTRA, Under Secy.

CORRIGENDUM

No. 15/8/03-DRT.—The following amendment may please be made in this Divisions Notifications of even number dated 5th January, 2004:—

In line 1 of the Notification—

For

The President is pleased to appoint Sh. R.M. Salve, Staff Officer, MM-III, Bank of India

Read

The President is pleased to appoint Sh. R.M. Savle, Staff Officer, MM-III, Bank of India.

M.K. MALHOTRA, Under Secretary

The 5th March 2004

No. 14/1/01-DRT.—The President is pleased to extend the period of deputation of Smt. Saraswathy Ramaraj, Secretary/Registrar in the office of Debts Recovery Appellate Tribunal, Chennai in the pay scale of Rs. 12,750-16,500 for a period of one year from 30.04.2004 to 29.04.2005(A.N.) or until further orders, whichever is earlier.

M.K. MALHOTRA, Under Secretary

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE

New Delhi, the 3rd March 2004

No. 4/2004-6/1947/91/HRD-1/798.—On attaining the age of superannuation Shri Sohan Chand, Foreign Trade Development Officer in this Office has retired from Government Service with effect from 29.2.2004 (A.N.).

K. CHANDRAMATHI,
Jt. Director, General of Foreign Trade

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 3rd March 2004

No. A-19011/5/99-Est.—The President is pleased to accept the resignation of Ms. Vishakha Chandrasekhar Kulkarni,

Additional Private Secretary to the Minister for Petroleum & Natural Gas from the post of Additional Private Secretary.

2. Ms. Vishakha Chandrasekhar Kulkarni, is accordingly relieved from the duties of Additional Private Secretary w.e.f. 29.2.2004 (AN).

L.S. NEGI, Under Secy.

MINISTRY OF COAL AND MINES

(DEPARTMENT OF COAL)

New Delhi-110001, the 1st March 2004

No. 12/7/2002-ASO.—On attaining the age of superannuation, Shri P.K. Mishra, IAS (OR:66) had retired from Government service w.e.f. 29.2.2004 (AN). Shri P.K. Mishra had also relinquished charge of the post of Secretary in the Department of Coal w.e.f. 29.2.2004(AN).

T.K. GHOSH, Director

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES & PUBLIC ENTERPRISES

(DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES)

New Delhi-110003, the 3rd March 2004

No. A-12023/2/2001-Admn.—The President of India is pleased to appoint Sh. Rakesh Saini, Deputy Manager (HO), ITDC as Joint Director on Short term contract for a period not exceeding three years from the date of his joining this department or until further orders w.e.f. the forenoon of 27th of February, 2004 in the Department of Public Enterprises, M/o Heavy Industries & Public Enterprises.

G.S. BOTHYAL, Director

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

New Delhi-110003, the 17th February 2004

No. A-12012/1/2003-P.I.(.)—With the approval of the competent authority, the adhoc appointment of Shri Bikram Keshri Nayak, Forest Ranger, to the post of Technical Officer (Forestry) Gr. II in the pay scale of Rs. 6500-10500/-, which expired on 8.1.2004, is hereby extended for a period of six months w.e.f. 9.1.2004 i.e. upto 8.7.2004 or till the regular incumbent becomes available, whichever is earlier.

ZAFRUL ISLAM, Under Secy.

No. A-12012/1/2003-P.I.(.)—With the approval of the competent authority, the adhoc appointment of Shri Rajesh Kumar, Research Assistant (WL) to the post of Technical Officer (Forestry) Gr. II in the pay scale of Rs. 6500-10500/-, which expired on 7.10.2003, is hereby extended for a period of six months w.e.f. 8.10.2003 i.e. upto 7.4.2004 or till the regular incumbent becomes available, whichever is earlier.

ZAFRUL ISLAM, Under Secy.

The 19th February 2004

No. A-32012/1/97-P.I.—Shri Shiv Charan Singh, Assistant Commissioner (Forestry), Ministry of Environment & Forests retired from the Government Service on attaining the age of superannation from the afternoon of 31st January, 2004.

ZAFRUL ISLAM, Under Secy.

New Delhi-110 003, the 23rd February 2004

No. A-12026/9/2003-IFS.I.—The President is pleased to appoint Shri S.S. Patnaik, an officer belonging to the 1969 batch of Joint AGMUT cadre of the Indian Forest Service, to the post of Additional Director General of Forests in the Ministry of Environment & Forests with effect from the forenoon of 19th February, 2004 till the date of superannuation i.e. 30.6.2004 or until further orders, whichever is earlier.

M.L. PARASHAR, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 30th January 2004

No. A.19013/2/2002-Estt.I.—In pursuance of Department of Official Language's Office Order No. 5/1/2004-OL(S) dated 21st January, 2004 and consequent on his appointment to the post of Assistant Director (OL) on regular basis in the scale of pay of Rs. 7500-250-12000, Shri Narinder Singh, belonging to CSOLS and presently working as Assistant Director (OL) on ad-hoc basis in the Department of Health, is relieved of his duties in this Ministry with effect from the afternoon of 30th January, 2004.

He is directed to report to Department of Legal Affairs.

DR. ANIL KUMAR, Under Secy.

(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi, the 7th January 2004

No. A.12025/2/2003-CHS.III.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Pramod Kumar Mishra, an officer of the Specialist Grade II of the Teaching Sub-cadre of the Central Health Service on probation and to post him as Associate Professor of G.I. Surgery, at G.B. Pant Hospital, New Delhi, under GNCT of Delhi w.e.f. forenoon of 2nd September, 2003 until further orders.

Consequent on acceptance of his technical resignation Dr. Pramod Kumar Mishra has relinquished the charge of Surgeon, Non-Teaching Sub-cadre of CHS at Dr. R.M.L. Hospital, New Delhi, w.e.f. afternoon of 1st September, 2003.

Y.K. TALWAR, Dy. Secy.

The 27th February 2004

No. A.12025/6/2001-CHS.III.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Anita Khokhar, an officer of the Specialist Grade II of the Teaching Sub-cadre of the Central Health Service on probation and to post her as Assistant Professor of P & SM at VMMC & S.J. Hospital, New Delhi, w.e.f. forenoon of 30.4.2003 until further orders.

Y.K. TALWAR, Dy. Secy.

No. A-12025/5/2001-CHS.III.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Smita Kaushik, an officer of the Specialist Grade II of the Teaching Sub-cadre of the Central Health Service on probation and to post her as Assistant Professor of Bio-Chemistry at Govt. of NCT of Delhi, w.e.f. forenoon of 27.05.2003 until further orders.

Y.K. TALWAR, Dy. Secy.

New Delhi-110011, the 27th February 2004

No. A. 12025/321/91-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. (Mrs.) G. Kalaivani to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 2200-4000 (pre-revised) in a temporary capacity with effect from forenoon of 22.10.91 until further orders. Dr. (Mrs.) G. Kalaivani is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme-Hyderabad.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

No. A. 12025/410/91-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Prabir Kumar Mitra to the Medical Officers' Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 2200-4000 (pre-revised) in a temporary capacity with effect from forenoon of 22nd October, 1991 until further orders. Dr. Prabir Kumar Mitra is posted as Medical Officer under Labour Welfare Organisation, Kolkata with effect from the same date.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

No. A.32012/6/2001-CHS.I.—Consequent on his promotion to the post of Senior Medical Officer, Dr. Neerja Chandra General Duty Medical Officer Sub-Cadre of the Central Health Service, working under Government of National Capital Territory of Delhi has relinquished the charge of the post of Medical Officer and assumed the charge of the post of Senior Medical officer on 6.12.2000 (FN).

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

The 3rd March 2004

No. A.12025/105/94-CHS.I.—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Chandrakant Raghunath Shivdikar to the Medical Officers' Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 2200-4000 (pre-revised) in a temporary capacity with effect from forenoon of the 21st September, 1994 until further orders. Dr. Chandrakant Raghunath Shivdikar is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Mumbai with effect from the same date.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

The 4th March 2004

No. A.12025/64/2001-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Tarun Kumar to the Medical Officers' Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 in a temporary capacity with effect from forenoon of 27.12.2001 until further orders. Dr. Tarun Kumar is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Delhi with effect from the same date.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF AYURVEDA, YOGA &
NATUROPATHY, UNANI SIDDHA & HOMOEOPATHY
(AYUSH)

New Delhi, the 4th March 2004

No. R.14011/21/2002-HD/ISM(E-I).—Consequent upon his transfer, Dr. K. Ravi relinquished the charge of the post of Senior Medical Officer (Siddha), CGHS, Chennai on the afternoon of the 16th January, 2004 and assumed the charge of the post of Senior Medical Officer (Siddha), CGHS, Delhi on the forenoon of the 19th January, 2004.

N.K. LAKHANPAL, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND
COOPERATION)

New Delhi, the 27th February 2004

No. 19011/412/2004-E.V.—Consequent on his attaining the age of superannuation, the President is pleased to retire Shri Gian Chand, Liaison and Protocol Officer in the Department of Agriculture and Cooperation, from Government Service with effect from the afternoon of 29th February, 2004.

K.D. UPRETI, Under Secy.

The 3rd March 2004

No. 12026/5/2001-E.I/E.V.—The President is pleased to extend the ad-hoc appointment of Shri Dharam Pal, a regular Assistant Commissioner (INM) in the Department of Agriculture and Cooperation, in the post of Deputy Commissioner (INM) in the same Department for a further period of six months with effect from 10.11.2003 or until further orders, whichever is earlier.

2. The above ad-hoc appointment will not bestow on him any claim for regular appointment.

K.D. UPRETI, Under Secy.

New Delhi, the 4th March 2004

No. 5-12/2001-INM-A.—The President is pleased to extend the ad-hoc appointment of Shri U.R. Pal, Analyst in Central Fertiliser Quality Control and Training Institute (CFQC&TI), Faridabad a subordinate office under the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation for further periods from 28.6.2003 to 17.12.2003 and 18.12.2003 to 17.12.2004 or till the regular incumbent of the post joins or until further orders, whichever is earlier.

SATBIR SINGH, Dy. Secy.

No. 5-12/2001-INM-A.—The President is pleased to extend the ad-hoc appointment of Shri K.K. Dhingra, Senior Analyst in Central Fertiliser Quality Control and Training Institute (CFQC&TI), Faridabad a subordinate office under the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation for further periods from 18.1.2003 to 31.3.2003, 1.4.2003 to 17.12.2003 and 18.12.2003 to 17.12.2004 or till the regular incumbent of the post joins or until further orders, whichever is earlier.

SATBIR SINGH, Dy. Secy.

No. 5-12/2001-INM-A.—The President is pleased to extend the ad-hoc appointment of Shri R.N. Ghosh, Chief Analyst in Central Fertiliser Quality Control and Training Institute (CFQC&TI), Faridabad a subordinate office under the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation for further periods from 18.12.2002 to 17.12.2003 and 18.12.2003 to 17.12.2004 or till the regular incumbent of the post joins or until further orders, whichever is earlier.

SATBIR SINGH, Dy. Secy.

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF LAND RESOURCES)

New Delhi, the 4th March 2004

No. A-12029/3/2001-Admn.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee (Group 'A') the

President is pleased to appoint Shri M.S. Nagra, Technical Officer in the Department of Land Resources as Assistant Commissioner in the pay scale of Rs. 10000-325-15200/- on promotion basis in the Department with effect from the forenoon of 3rd March, 2004, until further orders.

G.B. UPADHYAY, Under Secy.

MINISTRY OF AGRO AND RURAL INDUSTRIES

New Delhi, the 20th February 2004

No. A-22011/14/2003-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Ashutosh Mishra, (ITS : 89) as Director in the Ministry of Agro and Rural Industries with effect from the forenoon of the 16th February, 2004, by redesignating the post of Deputy Secretary presently held by him, for the balance period of his tenure, which would be upto 15.12.2008 or until further orders, whichever event takes place earlier. His tenure as central deputation commenced w.e.f. 16.12.2003.

H.R. JOSHI, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 27th February 2004

No. 4(126)/79-Pers. I.—On attaining the age of superannuation, Shri Mohan Lal, Joint Director (E. Code No. 164) in the Department of Information Technology will be retiring from service with effect from afternoon of 29.02.2004.

R.K. MANCHANDA, Dy. Dir.

(DEPARTMENT OF POSTS)

New Delhi-110001, the 4th February 2004

Subject : Promotion and posting in Postal Service Group 'B' Grade.

No. 9-25/99-SPG.—The Director General (Posts) is pleased to appoint Shri Subash Ch. Barik in the grade of Postal Service Group 'B' (Scale of pay Rs. 7500-250-12000/-) on regular basis notionally w.e.f. 01.11.2003 the date of punishment given to him is over and actual from the date of assumption of charge and until further orders with placement of his name below Shri V.S. Patel (Serial No. 3 in the notification of even number dated 30.9.2002 and above Shri Ashoke Pal (Serial No. 4 in the notification of even number dated 30.9.2002). On promotion he is posted in Jharkhand Circle.

2. Vigilance/Disciplinary case, if any

In case any vig./disc. Case, of the type referred to in O.M. No. 22011/2/86-Estt. (A) dated 12.01.88 from DOP&T circulated vide this office memo No. 25-19/88-SPG dated

04.05.88 (subsequently) revised vide DOP&T memo No. 22022/4/91-Estt. (A) dt. 14.09.92 circulated vide this office memo No. 25-19.88-SPG dated 13.10.92 is pending against the officials, he should not be relieved for posting without obtaining specific orders from this office. The official against whom any punishment is current they should not be promoted before expiry of currency of punishment. A report in this regard be submitted immediately.

3. Promotion Subject to Eligibility

In case if is later on found that the official was not eligible to take the examination under the rules or instructions on the subject or for any other reasons his promotion will be cancelled. In respect of official, if any, whose admission to the examination was provisional, the promotion will be subject to the final decision regarding his eligibility to taking the examination.

4. Probation Period

The official who have been promoted to the Postal Service Group 'B' will be on probation for two years and his suitability to hold this post will be adjudged on completion of two years of probation. If any official proceeds on leave for a period Exceeding 30 days during this period, the probation period will be extended depending upon the period of leave.

5. Training

The official will be directly promoted to Postal Service Group 'B' without any training for the present. However he will have to undergo the prescribed training as and when notified by Director, PSC, Ghaziabad.

6. Option for Fixation of pay

If the officer wishes to give option for choosing date for fixation of pay under FR-22(I)(a)(1) should do so within one month from the date of promotion.

7. Officers Allotted out of their Parent Circles.

The circles of allotment will immediately issue posting order and in any case not later than 06.02.2004. The Circles in which the officials are presently working will relieve the officials immediately on receipt of posting orders from the circles to which they are posted. In case, any official is not interested to assume promotional post, he may decline the offer of promotion in writing within a period of fortnight without which he may be relieved by concerned CPMG without fail. The CPMGs of the concerned circle will report to Directorate regarding assumption of charge and relief of officers in their circle in a consolidated manner by 29.02.2004 positively.

8. Relevant charge report may please be sent to this office in due course.

R S. YADAV, Asstt. Dir. Genl. (SGP)

The 9th February 2004

No. 4-35/2003-SPG.—The president is pleased to appoint the following officials to officiate in the Junior Time Scale of Indian Postal Service Group 'A' on purely temporary and ad-hoc basis for the period mentioned against each or till termination of the arrangement or their regular appointment to the said grade, whichever is earlier.

S. No.	Name of the officer	Circle of posting	Period for which Dte's approval is sought
--------	---------------------	-------------------	---

1	2	3	4
S/Shri			
1.	B.B. Choudhury	WB	10.07.01-31.03.02
2.	P.C. Bachar	-do-	20.07.01-28.02.02
3.	A.N. Giri	-do-	18.05.02-28.02.03
4.	A.K. Bhowmick	-do-	03.07.02-30.06.03
5.	S.C. Saha	-do-	14.11.02-30.06.03
6.	N.C. Barman	-do-	13.11.02-30.06.03
7.	T.C. Roy	-do-	01.03.03-30.06.03
8.	M.R. Biswas	-do-	18.02.03-30.06.03
9.	S.K. Sinha	-do-	03.04.03-30.06.03
10.	Ch. V. Brindavan Rao	A.P.	04.01.2K-06.11.2K
11.	K. Venkat Rao	-do-	30.04.01-31.07.01
12.	B. Kameshwar Rao	-do-	16.06.01-22.02.02
13.	A.V.S. Krishna Rao	-do-	17.03.03-30.09.03
14.	N.L. Gupta	UP	04.04.01-20.01.02
15.	C.P. Jaiswal	-do-	27.05.03-30.11.03
16.	B.B.L. Shrivastava	-do-	14.05.03-31.01.04
17.	K.S. Bhat	KTK	03.05.01-26.02.02
18.	K. Janardhanan	-do-	01.06.01-31.03.02
19.	G.S. Ghooli	-do-	07.05.2K-07.01.01 05.09.02-22.12.02
20.	B.S. Bhandary	-do-	23.04.01-10.09.01 30.04.03-29.08.03
21.	S.R. Morab	-do-	08.01.01-29.06.01
22.	H.A. Moidin	-do-	15.04.02-12.12.02
23.	B.G. Sonker	-do-	05.06.02-19.12.02
24.	A.J. Holla	-do-	06.02.03-01.09.03
25.	VM. Prabhu	-do-	03.02.03-30.09.03
26.	S.N. Prasad	Bihar	09.08.01-20.01.02
27.	D.D. Sharma	-do-	19.03.02-31.07.02
28.	J.N. Sharma	Assam	17.03.2K-09.07.2K
29.	M. Sindah Farook	T.N.	01.01.02-31.05.02
30.	N. Venkataraman	-do-	01.01.02-31.10.02
31.	P. Subramanian	-do-	01.01.02-31.03.02

1	2	3
32.	H.P. Sharma	Haryana 03.06.02-30.09.02
33.	M.B. Khaimar	-do- 31.03.03-30.09.03
34.	D.C. Wankhede	-do- 23.05.03-30.09.03
35.	G.T. Raut	-do- 26.05.03-30.09.03
36.	N.V. Sutar	-do- 08.05.03-30.09.03
37.	D.L. Dighe	-do- 26.05.03-30.09.03
38.	D.D. Sharma	H.P. 01.04.03-30.09.03

R.S. YADAV, Asst. Dir. Gen. (SGP)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 1st March 2004

No. 2000/E(GR) I/5/I.—The President is pleased to appoint the following probationers in the Indian Railway Service of Mechanical Engineers with effect from the date noted against each :—

S. No.	Name	Date of Joining
(S/Shri/Ms.)		
1.	Manish Pandey	04.09.2000
2.	Shankar Prasad Tiwari	04.09.2000
3.	Vivek Pandey	11.09.2000
4.	Abhishek Shekhar (Provisional)	04.09.2000
5.	Navaid Talib	04.09.2000
6.	Raj Kumar Beniwal	04.09.2000
7.	Suman Raaj (Provisional)	04.09.2000
8.	Ashish Kumar Kulhada	19.09.2000
9.	Sanjay Kumar	04.09.2000
10.	Rajesh Uike	13.09.2000
11.	Shinde Nalendra	04.09.2000
12.	Mes. Manoj Kumar Damaji	04.09.2000
13.	Mingyor Dhendup Bhutia	04.09.2000

MAMTA KANDWAL, Dy. Dir. Estt. (GR), Rly. Board.

The 4th March 2004

No. 99/E(GR) I/5/I.—The President is pleased to appoint the following probationers in the Indian Railway Service of Mechanical Engineers with effect from the date noted against each :—

Sl. No.	Name	Date of Joining
(S/Shri/Ms.)		
1.	Saket Kumar Mishra	21.09.99
2.	Manoj Jain	20.09.99

1	2	3
	(S/Shri/Ms.)	
3.	N. Sreenivas Reddy	20.09.99
4.	Neeraj Gupta	20.09.99
5.	Abhijit Singh	20.09.99
6.	Vivek Kumar Bajpai	20.09.99
7.	Sanjay Kumar Sharma	27.12.99
8.	Debabrata Chatterjee	20.09.99
9.	Suresh Kumar (Provisional)	20.09.99
10.	Arun Mahapatro	20.09.99
11.	Govind Pandey	20.09.99
12.	Sunil Kumar Sharma	27.12.99
13.	Jawahar Lal (Provisional)	20.09.99
14.	Lokesh Singh	20.09.99
15.	Akasi Devasahayam	20.09.00
16.	Sharad Pratap Singh	20.09.99

MAMTA KANDWAL, Dy. Director, Estt. (GR),
Railway Board

New Delhi, the 3rd March 2004

No. 97/E(GR)/I/5/1.—The President is pleased to appoint the following probationers in the Indian Railway Service of Mechanical Engineers with effect from the date noted against each :—

Sl. No.	Name	Date of Joining
1	2	3
	(S/Shri/Ms.)	
1.	Archana Mittal	15.03.97
2.	Shivendra Srivastava	15.03.97
3.	Suyash Narain	15.03.97
4.	Rajaji Meshram	15.03.97
5.	Onkar Singh	15.03.97
6.	Amit Srivastava	15.03.97
7.	Sidhartha Agarwal	15.03.97
8.	Deepak Sapra	15.03.97
9.	Om Prakash Shaw	14.06.97

MANEESH KUMAR, Jt. Director, Estt. (GR),
Railway Board

No. 95/E(GR)/I/5/2.—The President is pleased to appoint the following probationers in the Indian Railway Service of

Mechanical Engineers with effect from the date noted against each :—

Sl. No.	Name	Date of Joining
1	2	3
	(S/Shri/Ms.)	
1.	Ashish Jain	11.03.95
2.	Anmol Madan	23.03.95
3.	Samir Lohani	24.05.95
4.	Ramneesh Mohan	11.03.95
5.	Manish Kumar Gupta	11.03.95
6.	Neelesh Kumar	11.03.95
7.	Pankaj Singh	11.03.95
8.	Ashish Garg	11.03.95
9.	Amit Ramteke	11.03.95
10.	Tarun Huria	11.03.95
11.	Ramnik Singh	11.03.95
12.	Gaurav Agarwal	11.03.95
13.	Ujjal Halder	23.04.95
14.	Ganji Sumana	19.08.97
15.	Amitava Chaudhuri	11.03.95
16.	Sheel Bhadra	23.04.95
17.	Uday Singh Mina	11.03.95
18.	Partha Pratim Roy	14.03.97
19.	Sarvagya Bairva	28.10.95

MANEESH KUMAR, Jt. Director, Estt. (GR),
Railway Board

No. 98/E(GR)/I/1/2.—The President is pleased to appoint the following probationers in the Indian Railway Service of Mechanical Engineers with effect from the date noted against each :—

Sl. No.	Name	Date of Joining
1	2	3
	(S/Shri/Ms.)	
1.	Prashant Saran	15.03.98
2.	Suveer Kumar Sinha	15.03.98
3.	Sayantana Chakraborty	15.03.98
4.	Anjali Varshney	15.03.98
5.	Inderjit Dihana	15.03.98
6.	Neeraj Srivastava	15.03.98
7.	Sanjeev Tripathi	05.04.98
8.	Yatish Kumar	16.03.98

1	2	3
	(S/Shri/Ms.)	
9.	Prashant Kumar	13.08.98
10.	Amandeep Kapoor	13.08.98
11.	Bimal Topno	13.08.98

MANEESH KUMAR, Jt. Director, Estt. (GR),
Railway Board

No. 99/E(GR)/I/4—The President is pleased to appoint the following probationers in the Indian Railway Service of Mechanical Engineers with effect from the date noted against each :—

Sl. No.	Name	Date of Joining
1.	2	3

	(S/Shri/Ms.)	
1.	Vinod Kumar	29.05.1999
2.	Nilotpal Dey	29.05.1999
3.	Swayambhu Arya	29.05.1999
4.	Alok Priyadarshi	29.05.1999
5.	Alok Kumar Misra	29.05.1999
6.	Raju Prasad	29.05.1999
7.	Mahesh Kumar Roy	26.07.1999
8.	Ashish Garbyal	29.05.1999

MANEESH KUMAR, Jt. Director, Estt. (GR),
Railway Board

No. 2001/E(GR)/I/6—The President is pleased to appoint the following probationers in the Indian Railway Service of Mechanical Engineers with effect from the date noted against each:—

Sl. No.	Name	Date of Joining
1.	2	3

	(S/Shri/Ms.)	
1.	Abhishek Raghuvanshi	29.01.2002
2.	Prashant Kumar Singh	22.09.2001
3.	Anshuman Mohapatra	08.09.2001
4.	Shatruanjay Krishna	07.01.2002
5.	Pranjol Chandra	08.09.2001
6.	Vaibhav Singh	08.09.2001
7.	Anirudha Kumar Bharti	08.09.2001
8.	Anupam Kumar Chandan	08.09.2001
9.	Amitoj Ballabh	08.09.2001
10.	Rashmi Diwakar	05.09.2002
11.	Amit Saurastri	06.01.2003

MANEESH KUMAR, Jt. Director, Estt. (GR),
Railway Board

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 1st March 2004

No. 1/2004 (F. No. A-38012/1/2003-Adm.I)—Shri R. S. Chadha, Chief Engineer, Central Electricity Authority and an officer of the Central Power Engineering (Group A) Service, retired from service under the Government of India in the afternoon of 31st January, 2004 on attaining the age of superannuation.

V. C. KAJLA, Under Secy.

No. 4/2004 (F. No. A-38012/1/2003-Adm.I)—Shri Yadeshwar Rao, Director, Central Electricity Authority and an officer of the Central Power Engineering (Group A) Service, retired from service under the Government of India in the afternoon of 31st January, 2004 on attaining the age of superannuation.

V. C. KAJLA, Under Secy.

No. 5/2004 (F. No. A-38012/1/2004-Adm.I)—Shri N. K. Karmakar, Assistant Director-I/AEE, WREB, Mumbai an officer of the Central Power Engineering (Group A) Service, retired from service under the Government of India in the afternoon of 31st January, 2004 on attaining the age of superannuation.

V. C. KAJLA, Under Secy.

The 5th March 2004

No. 6/2004 (F. No. A-32013/4/2002-Adm.I)—The President is pleased to appoint Shri P. S. Mhaske, an officer of the Central Power Engineering (Group A) Service, *in absentia* to the grade of Director/Superintending Engineer (Ordinary Grade) in the scale of pay of Rs. 3700—5000 (Pre-revised) of the same Service in the Central Electricity Authority with effect from the forenoon of 09.12.2003 until further orders.

V. C. KAJLA, Under Secy.

No. 7/2004 (F. No. A-32013/4/2002-Adm.I)—The President is pleased to appoint the following officers of the Central Power Engineering (Group A) Service, to the grade of Director/Superintending Engineer (Ordinary Grade) in the scale of pay of Rs. 3700—5000 (Pre-revised) of the same Service in the Central Electricity Authority with effect from the dates mentioned against their names until further orders:—

Sl. No.	Name	Date of appointment
1.	2	3
	S/Shri	
1.	S. G. Tenpe	02.06.2003 (Forenoon)
2.	K. Santhanam	24.04.2003 (Forenoon)

1	2	3
	S/Shri	
3.	J. N. Mathur	24.04.2003 (Forenoon)
4.	Prabhat Mohan	25.04.2003 (Forenoon)
5.	C. Shanmugam	26.05.2003 (Forenoon)
6.	Moti Lal	24.04.2003 (Forenoon)
7.	S. B. Parate	24.04.2003 (Forenoon)
8.	S. K. Pattnayak	24.04.2003 (Forenoon)
9.	M. Ramachandra Singh	22.05.2003 (Forenoon)
10.	Smt. Anjali Chandra	24.04.2003 (Forenoon)
11.	Ramesh Kumar-II	28.04.2003 (Forenoon)
12.	Mangal Singh	16.09.2003 (Forenoon)
13.	Amar Singh-I	09.12.2003 (Forenoon)
14.	Kalika Prasad	30.12.2003 (Forenoon)
15.	M. S. Manoj	05.02.2004 (Forenoon)
16.	Dhani Ram	05.02.2004 (Forenoon)
17.	Dalip Kumar Jain	05.02.2004 (Forenoon)
18.	S. S. Yatri	05.02.2004 (Forenoon)

V. C. KAJLA, Under Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 23rd February 2004

No. 7/3/2001-GW. I—The President is pleased to appoint the following persons to the post of Junior Hydrogeologist in the grade of Scientist 'B' in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in the Central Ground Water Board on temporary basis with effect from the dates mentioned against their names.

Sl. No.	Name	Date of Joining
1.	Shri Vikas Ranjan	24.12.2003 (FN)
2.	Shri Shyam Sundar Hembrom	02.01.2004 (FN)

They will be on probation for a period of two years with effect from the date of their joining the post which may be extended by the competent authority at his discretion, if considered necessary.

SOHAN S. SAINI, Under Secy.